

फार्म सं. / फार्म क्र./F. No. 300 (स. शो./परि./Rev.2015) स्वतःच्या आयुष्याचा विमा उतरविण्यासाठी भरावयाचा अर्ज स्वजीवन बीमा प्रस्ताव पत्र

## PROPOSAL FOR INSURANCE ON OWN LIFE

(अल्पवयीन व्यक्तीच्या विम्यासाठी वापरात आणू नये) (अवयस्कों के बीमा के लिये इसका उपयोग न करें)

(Not to be used for insurance on the lives of minors)

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अधिनियम 1956 च्या अन्वयं संस्थापित) (जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 द्वारा संस्थापित)

नवीनतम फोटो Latest Passport Size\* Photo

| पदि हाँ, | प्राईसी पोर्टल के साथ पंजीकृत है : हाँ/नही/Are you registered with LIC Portal: Yes/No<br>प्राहक आईडी दें /If yes, give Customer - ID:<br>i तो, अपना ईमेल आईडी दें /If no, give your E-mail ID:                                                                                                                    | आवक नं. /आवक सं.<br>Inward No.                                                                                               | दिनांक /तारीख<br>Date |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| णे विभा  | रावयाचे आहे / अभिकर्ताद्वारा भरा जायें /To be filled by Agent<br>। /थाने मंडल / शाखा कार्यालय : वि.अ./सी.एल.आय.ए.संकेत क्र./उपदेशक और मोबाइल नंबर<br>ivision : Branch Office : D.O. / C.L.I.A. Code No./ Mentor & Mobile No.:                                                                                     | कार्यालयीन उपयोगासाठी/कार्याल<br>For Office use<br>प्रस्ताव क्र. :<br>प्रस्ताव सं. :<br>Proposal No.:                        | य के उपयोगार्थ/       |
| भिकर्ता/ | एस.इ./डि.एस.ई/सुप. अभिकर्ताचे नाव आणि मोबाईल नं.:<br>एफ.एस.इ./डि.एस.ई/सुप. अभिकर्ता का नाम और मोबाइल नं.:<br>FSE's/DSE's/Sup.Agent's Name & Mobile No. :                                                                                                                                                          | निवेशित रक्कम :<br>जमा राशि :<br>Amount of Deposit :                                                                         |                       |
| भकर्ता/  | एफ.एस.इ./डि.एस.ई/सुप. अभिकर्त्यांचा संकेत क्र. परवाना क्रमांक : समाप्ति दिनांक :<br>एफ.एस.इ./डि.एस.ई/सुप. अभिकर्ता का संकेत सं. अनुज्ञप्ति संख्या : समाप्ति तिथी :<br>FSE's/DSE's/Sup.Agent's Code No. Licence No. : Date of Expiry :                                                                             | शा. का. ज. क्र. :<br>शा. का. स. स. :<br>B.O.C. No.:<br>दिनांक :<br>Date :                                                    |                       |
|          | (अर्जात विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सुस्पष्ट लिहावीत. उत्तरे शब्दात लिहिली पाहिजेत. टाकाचे फटकारे, टिंबे f<br>(सभी उत्तर स्पष्ट लिखने चाहिये। उत्तर शब्दों में देने चाहिए। रेखा, बिन्दु या अन्य किसी प्रकार i<br>(All answers to be filled in legibly. Answers must be given in words. Strokes of the pen or do | के रुप में स्वीकार नहीं किए जायेंगे)                                                                                         |                       |
|          | संपूर्ण नांव (आडनाव प्रथम) आणि पत्रव्यवहार करावयाचा पत्ता<br>पुरा ग्रम (कुल नाम प्रथम) एवं पता जिसमें पत्राचार किया जायेगा।<br>Full name (Surname first) and address to which communications are to be sent.                                                                                                      | विमा उतरण्याचा हेतू ?<br>बीमे का उद्देश्य :<br>Object of Insurand<br>राष्ट्रीयता :<br>Nationality :<br>जन्मस्थळ<br>जन्मस्थान |                       |
|          | <u>पिन / Pin                                  </u>                                                                                                                                                                                                                                                                | Place of Birth<br>लिंग : पु                                                                                                  | न म. <u>ज</u> ाअ. ू   |
|          | दूरध्वनी क्रमांक (एसटीडी सहित) / Tel.: (with STD Code):<br>-धर / Resi.: कार्यालय / Office: मोबाईल नं. / Mobile No.:<br>ई-मेल / e-mail:                                                                                                                                                                            | Gender M L<br>जवळच्या जन्म दिनास<br>निकटतम वर्षगांठ पर<br>Age (nearer birtho                                                 | आयु<br>ay)yrs         |
| 5. (A)   | कायम रहाण्याचा पत्ता (वेगळा असल्याझ) स्थायी पत्ता (अगर उल्लिखित से अलग हो)<br>Residential address, if different from above                                                                                                                                                                                        | जन्मतारीख / जन्म ति                                                                                                          | A-A A A               |
|          | पिन /Pin                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रस्तुत आयु-प्रमाण का<br>Nature of age-prod                                                                                 | स्वरुप .              |
|          | संक्षिप्त नांव / संक्षिप्त नाम / Short Name विडलांचे संपूर्ण नांव (आडनावं प्रथम) / पिता का पूरा नाम                                                                                                                                                                                                               | (कुलनाम प्रथम) / Father's full n                                                                                             | ame (Surname first    |
| ī. (B)   | नियोजित व्यक्तिचे (नॉमिनीचे) संपूर्ण नांव (आडनाव प्रथम) व पत्ता वय तुमच्याशी अस<br>नामित व्यक्ति का पूरा नाम (कुलनाम प्रथम) एवं पता आयु आप से सम्बन्ध<br>Nominee's full name (Surname first) and address Age Relationshi                                                                                          |                                                                                                                              |                       |

|                                                             | गर नामित व्यक्ति अ<br>Nominee is mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वयस्क है, तो नि                                                                                                                                                                                                                | नेयोक्ता का पूरा न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | त व्यक्ति के<br>ationship to                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                            | व्यक्ति के हस्ता<br>s token of cons                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                            |                                                                                     |
| योग                                                         | ष्टिक आणि मुदत<br>जना और अवधि<br>an & term                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रस्तावित रक्<br>प्रस्तावित बीम<br>Sum propo                                                                                                                                                                                  | रक्कम<br>अवधि<br>(यदि प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अतिरिक्त प्रस्तावित<br>(आवश्यक असल्यास)<br>राईडर बीमा राशि<br>प्रसावित हो तो)<br>Rider sum proposed<br>uired)                                                                                                                                                                                                                                                             | रक्कम<br>गंभीर बि<br>(यदि प्र<br>Critica                                             | (आवश्यव<br>मारी राईड<br>स्तावित हे<br>I illness                                                                                                                                                                | क असल्य<br>डर बीमा र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ास)<br>Iशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अपघाती ला<br>आहे का?<br>क्या दुर्घटना<br>चाहते है?<br>Is Accider<br>Rider requ                                                                                                                                        | हितलाभ<br>nt benefit                                                                                                                      | पॉलिसी पूर्व<br>आहे का ?<br>यदि पॉलिस<br>पिछली ति<br>तो तिथि व<br>If Policy<br>back, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | े कृपया रि<br>सी का प्राच<br>थी से चाह<br>व्यक्त करें<br>is to be     | तेथी सांगा<br>रंभ किसी<br>इते हैं।<br>।<br>e dated         | निवेशित रक्कम<br>जमा राशि<br>Amount<br>deposited                                    |
| भुग                                                         | गतान विधि (वार्षिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , अर्धवार्षिक,                                                                                                                                                                                                                 | तिमाही, मासिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ाही, मासिक किंवा वे.ब.यं<br>या वे.ब.यो.)<br>hly or under SSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भु                                                                                   | गतान प्रा                                                                                                                                                                                                      | रिटी नंबर<br>धिकारी सं<br>authority                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ř.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न बचत विम्य                                                                                                                                                                                                           | गसाठी)                                                                                                                                    | विभाग<br>विभाग<br>Deptt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | क्र.                                                                  | बैज अथ                                                     | मथवा वे. क्र.<br>वा वे. क्र.<br>or S. R. No.                                        |
| सध                                                          | ध्याचा व्यवसाय / व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वर्तमान व्यवसार                                                                                                                                                                                                                | ग /Present oc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ccupation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | व्य                                                                                                                                                                                                            | गवसायाचे '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | निश्चि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | त स्वरुप / व                                                                                                                                                                                                          | नार्य का यथा                                                                                                                              | <br> र्थ स्वरुप /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Exact r                                                               | ature of                                                   | duties                                                                              |
| सध                                                          | ध्याच्या मालकाचे न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ांव / वर्तमान नि                                                                                                                                                                                                               | नेयोक्ता का नाम /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Name of present e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mployer                                                                              | त्य                                                                                                                                                                                                            | पाच्या नोक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रीत व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कालावधि / र                                                                                                                                                                                                           | उसके साथ र                                                                                                                                | सेवा की अव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वधि /Len                                                              | igth of se                                                 | ervice with hin                                                                     |
| as                                                          | ssociated with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ते है ? या आपके<br>any specific                                                                                                                                                                                                | शौक किसी प्रका<br>hazard or c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र से खतरनाक हो सकते है<br>do you take part in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ? यदि हाँ                                                                            | तो विवरण                                                                                                                                                                                                       | ण दें।/Is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | your                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       | n                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                            |                                                                                     |
| as<br>tha<br>आ<br>निव                                       | ssociated with<br>at could be da<br>Iपण राजकारणी व्यवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ते है ? या आपके<br>any specific<br>ingerous in<br>क्त आहात का ?<br>गिईपी) / Are y                                                                                                                                              | शौक किसी प्रका<br>c hazard or c<br>any way? If<br>(आरबीआय निर्दे<br>ouPolitically E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | र से खतरनाक हो सकते है<br>do you take part in<br>yes give details.<br>शानुसार पीईपी) / क्या अ<br>Exposed Person (PE<br>रु./वार्षिक आय रु.                                                                                                                                                                                                                                 | हे ? यदि हाँ<br>hazardo<br>प राजनीति<br>EP as pe                                     | तो विवरण<br>ous acti<br>तेक रुप से<br>er RBI G                                                                                                                                                                 | ण दें।/Is privities of the distribution of th | your<br>or ha<br>क्ति है<br>es.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | occopatio<br>ive hobbie<br>है ? (आरबीअ<br>आपण प्राप्<br>क्या आप                                                                                                                                                       | n<br>s<br>ई<br>तेकर भरता<br>आयकर दात                                                                                                      | ा है ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sessee                                                                | ?                                                          |                                                                                     |
| as<br>tha<br>आ<br>निव                                       | ssociated with<br>at could be da<br>पण राजकारणी व्यवि<br>र्देशनो के अनुसार पं<br>क्षणिक पात्रता/शैक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ते है ? या आपके<br>any specific<br>ingerous in<br>क्त आहात का ?<br>गिईपी) / Are y                                                                                                                                              | शौक किसी प्रका<br>c hazard or c<br>any way? If<br>' (आरबीआय निर्वे<br>ouPolitically E<br>वार्षिक प्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | र से खतरनाक हो सकते है<br>do you take part in<br>yes give details.<br>शानुसार पीईपी) / क्या अ<br>Exposed Person (PE<br>रु./वार्षिक आय रु.                                                                                                                                                                                                                                 | े ? यदि हाँ<br>hazardo<br>पप राजनीति<br>EP as pe<br>प्राप्ति सा                      | तो विवरण<br>ous acti<br>तेक रुप से<br>er RBI G                                                                                                                                                                 | ण दें।/Is privities of the distribution of th | your<br>or ha<br>क्ति है<br>es.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | occopation ve hobbie  े ? (आरबीअ  आपण प्राप्तिया आप अप                                                                                                                            | n<br>ss<br>ई<br>तेकर भरता<br>आयकर दात<br>an Income                                                                                        | ਾ है ?<br>e Tax-As                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sessee                                                                | ?<br>State:                                                |                                                                                     |
| as<br>tha<br>आ<br>निवं                                      | ssociated with<br>at could be da<br>Iपण राजकारणी व्यवि<br>र्देशनों के अनुसार पं<br>क्षणिक पात्रता/शैक्ष<br>ducational qual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ते है ? या आपके<br>any specific<br>ungerous in<br>क्त आहात का ?<br>गोईपी) /Are y<br>णिक योग्यता<br>ification                                                                                                                   | शौक किसी प्रका<br>c hazard or c<br>any way? If<br>t (आरबीआय निर्दे<br>ouPolitically E<br>वार्षिक प्राप्ति<br>Annual Inc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | र से खतरनाक हो सकते है<br>do you take part in<br>yes give details.<br>शानुसार पीईपी) / क्या अ<br>Exposed Person (PE<br>रु./वार्षिक आय रु.                                                                                                                                                                                                                                 | े ? यदि हॉ<br>hazardd<br>प राजनीति<br>EP as pe<br>प्राप्ति सा<br>Source              | तो विवरण<br>pus acti<br>नेक रुप से<br>er RBI G<br>set / आ<br>s of Inco                                                                                                                                         | ग दें।/Is o<br>iivities o<br>में सजग व्य<br>Guidelin<br>गय के साध<br>ome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | your ha<br>क्ति है<br>ees.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | occopation ve hobbie ?? (आरबीआ आपण प्राप्ति क्या आप र Are you पैन संख्या PAN NO आधार का AADHAI                                                                                                                        | n<br>s<br>ई<br>तेकर भरता<br>आयकर दात<br>an Income<br>:<br>:<br>:<br>ई संख्या :<br>२ CARD N                                                | ਾ है ?<br>e Tax-As<br>NO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | State:                                                     | es, please not                                                                      |
| as<br>tha<br>आ<br>निवं<br>शैध<br>Ec                         | ssociated with<br>at could be da<br>Iपण राजकारणी व्यवि<br>र्देशनों के अनुसार पं<br>क्षणिक पात्रता/शैक्ष<br>ducational qual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ते है ? या आपके<br>any specific<br>ungerous in<br>क्त आहात का ?<br>गोईपी) /Are y<br>णिक योग्यता<br>ification<br>त असल्यास ख<br>ग<br>बंधित आहात<br>आप संबंधित है                                                                | शौक किसी प्रका<br>c hazard or c<br>any way? If<br>t (आरबीआय निर्दे<br>ouPolitically E<br>वार्षिक प्राप्ति<br>Annual Inco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र से खतरनाक हो सकते है<br>fo you take part in<br>yes give details.<br>!शानुसार पीईपी) / क्या अ<br>Exposed Person (Pf<br>रु./वार्षिक आय रु.<br>ome Rs.                                                                                                                                                                                                                     | प राजनीति<br>प राजनीति<br>EP as pe<br>प्राप्ति सा<br>Source                          | तो विवरण<br>pus acti<br>तेक रूप से<br>er RBI G<br>ध्येन / आ<br>s of Inco<br>कृपया निम्<br>त्यावरून<br>स्वास्थ्य<br>श्रेणी<br>Medica                                                                            | ग दें।/Is o<br>iivities o<br>में सजग व्य<br>Guidelin<br>गय के साध<br>ome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | your ha<br>क्ति है<br>es.)<br>धन<br>जुमची<br>बाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | occopation occopation ve hobbie ? (आरबीअ अपण प्राप्ति क्या आप र Are you पैन संख्या PAN NO आधार का AADHAI करें /If you वर्गवारी स्वास्थ्य after                                                                        | तिकर भरता<br>आयकर दात<br>an Income<br>:<br>: इं संख्या :<br>R CARD N<br>are empl<br>अनत्यास<br>क्या आप<br>यदि हाँ तो                      | T है ? e Tax-As:  NO: loyed in to present the present | the Arm<br>र्गात समावे<br>ए-1 के र्न                                  | State:<br>ed Force<br>श केला हो<br>ोचे स्तर प              | ाता का?<br>र रहे है?                                                                |
| as<br>tha<br>आ<br>निव<br>शैध<br>Ec                          | ssociated with at could be da lipu राजकारणी व्यक्टिंशनों के अनुसार पे क्षणिक पात्रता/शैक्षं ducational quali real ते करी क्षणिक दल-विभाग्याच्याशी आपण संबंधान की विंग जिससे शंगातु to which you                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ते है ? या आपके<br>any specific<br>ingerous in<br>क्त आहात का ?<br>गेईपी) /Are y<br>णिक योग्यता<br>ification<br>त असल्यास ख<br>ग<br>बंधित आहात<br>आप संबंधित है<br>ou belong                                                   | शौक किसी प्रका<br>c hazard or c<br>any way? If<br>' (आरबीआय निर्वे<br>ouPolitically E<br>वार्षिक प्राप्ति<br>Annual Inco<br>वालील माहिती द्य<br>तुमचा हुद्दा<br>पद्,(रँक)<br>Rank therein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | र से खतरनाक हो सकते हैं<br>fo you take part in<br>yes give details.<br>शानुसार पीईपी) / क्या अ<br>Exposed Person (PE<br>रु./वार्षिक आय रु.<br>ome Rs.<br>।/यदि आप सेना के कर्मच<br>तेथील शेवटच्या वैद्यव<br>तपासणीची तारीख<br>विगत स्वास्थ्य परिक्षा<br>Date of last Medic<br>Examination                                                                                 | प राजनीति<br>pu राजनीति<br>EP as pe<br>प्राप्ति सा<br>Source                         | तो विवरण<br>pus acti<br>नेक रूप से<br>er RBI G<br>धने / आ<br>इ of Inco<br>व्यावरून<br>स्वास्थ्य<br>श्रेणी<br>Medica<br>Medica                                                                                  | ण दें I / Is ivities of the sound of the so | yourr ha<br>क्ति है<br>es.)<br>धन<br>ज्लेख<br>जुमची<br>बाद<br>ory<br>inati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | occopation ve hobbie ? (आरबीआ अापण प्राप्ति क्या आप अपण प्राप्ति क्या आप अपण प्राप्ति कर्मा अपण प्राप्ति कर्में अपण अधार का AADHAI कर्में /If you वर्गवारी स्वास्थ्य after                                            | तिकर भरता<br>आयकर दात<br>an Income<br>:<br>: इं संख्या :<br>R CARD N<br>are empl<br>अनत्यास<br>क्या आप<br>यदि हाँ तो                      | T है ? e Tax-As:  NO: loyed in to present the present | the Arm<br>र्गात समावे<br>ए-1 के र्न                                  | State:<br>ed Force<br>श केला हो<br>ोचे स्तर प              | ता का?<br>र रहे है?                                                                 |
| as<br>tha<br>आ<br>शै<br>हिट<br>आ<br>सै<br>ज्य<br>से<br>प्रा | ssociated with at could be da live राजकारणी व्यक्ति हैंशनों के अनुसार पे क्षिणिक पात्रता/शैक्षां ducational quali live सैन्यात नोकरी न्यातील दल-विभाष्याच्याशी आपण संबन्ता की विंग जिससे विंगा की विंग जिससे विंगा के विंग जिससे विंगा के विंग जिससे विंगा की विंगा कि जो जिससे विंगा की विंगा की विंगा कि जो जिससे विंगा की विंगा कि जो जिससे विंगा की विंगा की विंगा कि जो जो जिससे विंगा की विंगा की विंगा कि जो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ते है ? या आपके any specific ungerous in कित आहात का ? गेडियो) / Are y पिक योग्यता ification जिल्ला कि सम्बद्धित है ou belong ही कचेरीकडे कि अर्ज आपणाक तंत्र के या गया है 'त किया गया है 'त किया गया है 'त किया गया है '      | शौक किसी प्रका c hazard or c any way? If l (आरबीआय निर्वे ouPolitically E वार्षिक प्राप्ति Annual Inco and माहिती द्य तुमचा हुद्दा पद् (रँक) Rank therein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | र से खतरनाक हो सकते हैं fo you take part in yes give details.  [शानुसार पीईपी) / क्या अ  Exposed Person (PE  के./वार्षिक आय के.  ome Rs.  [/यदि आप सेना के कर्मच  तेथील शेवटच्या वैद्यव  तपासणीची तारीख  विगत स्वास्थ्य परिक्षा  Date of last Medic  Examination  [] वीमेदाराकडे सध्या आपल्काय ? तसे असल्यास, आ  का कोई प्रस्ताव पत्र या अरण दे।  urance or an applicatic | प राजनीति<br>प राजनीति<br>EP as pe<br>प्राप्ति सा<br>Source<br>जीय<br>की तिथी<br>cal | तो विवरण<br>pus acti<br>नेक रूप से<br>er RBI G<br>धने / आ<br>s of Inco<br>कृपया निम्<br>त्यावरून<br>स्वास्थ्य<br>श्रेणी<br>Medica<br>Medica<br>il द्या/क्या<br>न बीमा पॉरि                                     | ग दें।/Is ivities of two additions of t | yourr ha<br>क्ति है<br>es.)<br>धन<br>जीवन्<br>केसी<br>न प्राप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | occopation ve hobbie  ? (आरबीआ आपण प्राप्ति क्या आप : Are you पैन संख्या PAN NO आधार का AADHAI करें /If you वर्गवारी स्वास्थ्य after on                                                                               | तिकर भरता<br>प्रायकर वात<br>an Income<br>इं संख्या :<br>R CARD N<br>are empl<br>अ-1 पेक्षा<br>असल्यास<br>क्या आप<br>यदि हाँ तो<br>Were yo | T है ? e Tax-As:  NO: loyed in to present the present | the Arm<br>र्गात समावे<br>ए-1 के र्न                                  | State:<br>ed Force<br>श केला हो<br>ोचे स्तर प              | ाता का ?<br>र रहे है ?                                                              |
| as that आ मि जिल्हा के Ec                                   | ssociated with at could be da live राजकारणी व्यक्ति हैं होने के अनुसार पे क्षिणिक पात्रता/शैक्षां ducational quali live सैन्यात नोकरी न्यातील दल-विभाग्याच्याशी आपण संब् ना की विंग जिससे दें ving to which your life now be her proposal und हामंडळाच्या कोणत्या हा चालू करण्याबहूल पा निगम के किसी या जीवन बीमा पॉलिंग या जीवन बीमा पॉलिंग वीमा पॉलिंग विंग वीमा पॉलिंग वीम | ते है ? या आपके any specific ungerous in क्ल आहात का ? तीईपी) / Are y पिक योग्यता iffication  ति असल्यास र पा मंदिर के कि कि के कि कि का जाने कि | शौक किसी प्रकाट hazard or cany way? If '(आरबीआय निर्दे ouPolitically E वार्षिक प्राप्ति Annual Incomment of the second of the s | र से खतरनाक हो सकते हैं fo you take part in yes give details.  शानुसार पीईपी) / क्या अ  Exposed Person (PE  रु./वार्षिक आय रु.  ome Rs.  I/यदि आप सेना के कर्मच  तेथील शेवटच्या वैद्यव तपासणीची तारीख विगत स्वास्थ्य परिक्षा  Date of last Medic Examination  हो वीमेदाराकडे सध्या आपल्काय ? तसे असल्यास, अर्थ हो का कोई प्रस्ताव पत्र या अरण दे।                         | प राजनीति<br>EP as pe<br>प्राप्ति सा<br>Source                                       | तो विवरण<br>pus acti<br>तेक रूप से<br>er RBI G<br>धने / आ<br>s of Inco<br>खावरन<br>त्यावरून<br>स्वास्थ्य<br>श्रेणी<br>Medica<br>Medica<br>il द्या/क्या<br>त बीमा पॉरि<br>ival of a<br>other insi<br>वेम्याचा अ | गर्दे।/Is; ivities of i सजग व्य Guidelin  म्न का उठ ं केलेली ह परीक्षा के al categal Exam  पा आपल्या ं निगम के ह लेसी के पु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | your your had a feet of the seed of the s | occopation ve hobbie  ? (आरबीआ अापण प्राप्ति क्या आप : Are you पैन संख्या PAN NO आधार का AADHAI करें /If you वर्गवारी स्वास्थ्य वर्गवारी स्वास्थ्य कर्ग संबंधित कार्यालय को न से संबंधित ur life or any give details. | तिकर भरता<br>प्रायकर वात<br>an Income<br>इं संख्या :<br>R CARD N<br>are empl<br>अ-1 पेक्षा<br>असल्यास<br>क्या आप<br>यदि हाँ तो<br>Were yo | ा है ? e Tax-As: NO: loyed in i किनिष्ठ वर्ग केव्हा ? कभी श्रेणी i कब ? pu ever b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | the Arm<br>र्गात समावे<br>ए-1 के र्न<br>elow A-<br>'हो' अ<br>यदि उत्त | State:<br>ed Force<br>श केला हो<br>गोचे स्तर प<br>1 catego | ता का ?<br>र रहे है ?<br>ry? if so, when<br>पूर्ण तपशील द्या/<br>ो पूरा विवरण दीजिः |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वाय किंवा अन्य शर्तीवर स्वीकारत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ना काय ?/प्र                      | स्ताविक शर्तों व                   | के अतिरिक्त अ           | ान्य शर्तों पर नि              | स्वकृत                  |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accepted on terms othertha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n those pro                       | oposed?                            |                         | STATE TON                      |                         |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उ नाही या कारणाने आपण मागील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                    | ो विमा महामंड           | ळाला                           |                         |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | का? जर तसे असेल तर त्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                    | 040-                    | ~ "                            |                         |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कोई निगम की पॉलिसी, स्वीक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | य नहीं होने                       | क कारण, वा                         | पस का ह ? य             | ाद हा                          |                         |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |
| तो विवरण दें:<br>Have you during t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | he past one year returned                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | any policy                        | of the corpo                       | oration as th           | e                              |                         |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eptable to you? If yes, give                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                    |                         |                                |                         |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |
| आपल्या आधींच्या वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | म्यांची माहिती द्या. (गेल्या तीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वर्षात समि                        | ति / रद्द केले                     | ल्या / झालेल्य          | । पॉलिसीज                      | धरून)                   |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |
| अपनी सभी पिछली प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गॉलिसीयों का नीचे विवरण दिजि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ाये (पिछले                        | तीन वर्षों में स                   | मर्पित एवं कार          | नातीत पॉलिस                    | गियों सहित)             |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |
| Please give detail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ls of your previous Insurar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nce : (incl                       | uding policie                      | s surrender             | ed / lapsed                    | during last             | 3 years)                          |                               | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | agent livet                | zienność        |
| पॉलिसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ज्या विमा कंपन्यांकडून                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कोष्टक                            | मुख्य                              | अवधि                    | गंभीर                          | घेतलेल्या               | आरंभ                              | सामान्य                       | वैद्यकीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                          | नसल्यास         |
| क्रमांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | आधीच्या पॉलिसीज्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | आणि                               | कोष्टात                            | अतिरिक्त                | आजार                           | अपघाती                  | दिनांक                            | दरानें                        | किंवा वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | भरलेल्या        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | खरेदी केलेल्या आहेत<br>त्यांची नावे आणि पत्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मुदत                              | खालील                              | प्रस्तावित              | अतिरिक्त                       | लाभाची                  |                                   | प्रस्तावा                     | वैद्यकीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                          | हप्त्यांची      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (जर आधीच्या पॉलिसीज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | विमित                              | विमा                    | विमित                          | रक्कम                   |                                   | प्रमाणे<br>स्वीकृत            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्थितीत<br>आहे का ?        | तारीख वि        |
| पॉलिसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | एलआयसी ऑफ इंडिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | रक्कम                              | रक्कम                   | रक्कम                          |                         |                                   | झाले का ?                     | Principal Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जाह प्रा:                  | तारीख द्य       |
| संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कडून असतील तर शाखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                    |                         |                                |                         |                                   | क्या प्रस्तावीत               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | विभाग कार्यालयाचे नांव द्या)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                    |                         |                                |                         |                                   | किये के                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 135.00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बीमा कंपनियाँ पते सहित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | तालिका                            | मूल योजना                          | अवधि बीमा               | क्रिटिकल                       | दुर्घटना                | आरंभ                              |                               | चिकित्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ा विया पूरे                | यदि नहीं त      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जहाँ से पिछली पॉलिसी/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | एवं                               | का बीमाधन                          | राईडर                   | इलनेस                          | हितलाभ                  | तिथी                              | अनुसार                        | या बीना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बीमा धन                    | अन्तिम          |
| Policy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पॉलिसियाँ खरीदी गई है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अवधि                              | वर्ग बागान ।                       | बीमा                    | राईडर                          | राईडर की                |                                   | साधारण दर                     | चिकित्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ा के लिए                   | चुकता वि        |
| number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यदि पिछली पॉलिसियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                    |                         |                                | 1                       |                                   | पर स्वीकृत                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चालू है?                   | या अभ्यर्प      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | एलआईसी ऑफ इंडिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                    | राशि                    | बीमा राशि                      | बीमा राशि               |                                   | यदि नहीं तो                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | तिथी            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | की हैं तो शाखा/मं.का.<br>का नाम दें)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                    |                         |                                |                         |                                   | विवरण दें                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Insurance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Table                             | Sum                                | Term                    | Critical                       | Amount                  | Date                              | Whether                       | Medica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Whether in force           | If not, gi      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Companies from where the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | & term                            | assured on Main                    | assurance<br>rider      | illness                        | of<br>Accident          | of<br>Commen-                     | accepted                      | or<br>Non-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | for full                   | of last         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | previous policy /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | torin                             | plan                               | Sum                     | Sum                            | Benefit                 | cement                            | proposed                      | Medica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | Premiu          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | policies have been                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                    | Assured                 | Assured                        | Rider                   |                                   | at ordinary<br>rates? if      | TTME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Assured                    | paid or date or |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | purchased with address (if previous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                    |                         |                                | taken                   |                                   | not give                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | surrence        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | policies are from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                    |                         |                                |                         |                                   | details                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LIC of India, give                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                    |                         |                                |                         |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | name of Branch/DO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                    |                         |                                |                         |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AND STREET                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                    | 10.30%                  |                                |                         |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                    |                         | 1000                           |                         |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                    |                         |                                |                         | 1.000                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | land to the     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                    |                         |                                |                         |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                    |                         | 9000                           | La de                   | F1.5                              | \$15A 3n 5                    | 30000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                    |                         | 11170 11 01                    |                         |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | des of          |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ।<br>वर्षात एखादी जुनी पॉलिसी काल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गरीर अग                           | TITE 219121 II                     | ।<br>ਰਵ ਸ਼ਾੱਤਿਕੀਰ       | क्रागंनग्रीन के                | नी शयान्याय             | परापंटल नरी                       | ।<br>विस्तातस्त्री            | कारत ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | टी                         |                 |
| ाटप : मागाल तान व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विश्वत एखादा जुना पालिसा कार<br>तीन वर्षों के अन्दर कोई पुरानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गतात असल                          | न्यास अथवा प्र                     | दत्त पालसात             | रुपातरात क                     | ला अत्तल्यात            | नहानडळ गप<br>मर्च जो जो जिए       | ग कोर्ड जगा ग                 | वनात गत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ा.<br>चनीकार नहीं क        | ਹਰਾ ਵੈਂ।        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तान वर्षा के अन्दर कोड पराना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पालसा क                           | ididid el 15                       | या चुकता पा             | a policy ba                    | e langed or             | has convert                       | ed into paid                  | un polic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | v within the la            | st 3 years      |
| N.B. Compretion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | doce not entertain any fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soll blobos                       | sai iui ilisuid                    | alice whiele            | a policy ria                   | a lapaca of             | nas convert                       | od into para                  | ар роло                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , maint are in             | ,               |
| N.B : Corporation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | does not entertain any fro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.1                              |                                    |                         |                                |                         |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |
| N.B : Corporation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | does not entertain any fro<br>पारिवारिक इतिवृत्त / Family                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | history                           | 0                                  | ·- / 00-                | 1                              |                         |                                   |                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                 |
| N.B : Corporation<br>कौटुंबिक इतिहास /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n does not entertain any fro<br>पारिवारिक इतिवृत्त / Family                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                    | वंत / जिवित             |                                |                         | - 0)                              | _1>                           | मृत / D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                 |
| N.B : Corporation कौटुंबिक इतिहास / कौटुंबिक इतिहास /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | does not entertain any fro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वय                                | / आयु                              | प्रकृतिमान              | /स्वास्थ्य सि                  | थती                     |                                   | वय/ मृत्यू के                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मृत्युचे कारण /            |                 |
| N.B : Corporation<br>कौटुंबिक इतिहास /<br>कौटुंबिक इतिहास /<br>Family- history                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n does not entertain any fro<br>पारिवारिक इतिवृत्त / Family<br>पारिवारिक इतिवृत्त /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वय                                |                                    | प्रकृतिमान              |                                | थती                     |                                   | वय/ मृत्यू के<br>Age at death | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                 |
| N.B : Corporation<br>कौटुंबिक इतिहास /<br>कौटुंबिक इतिहास /<br>Family history<br>वडिल /पिता /Fatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n does not entertain any fro<br>पारिवारिक इतिवृत्त / Family<br>पारिवारिक इतिवृत्त /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वय                                | / आयु                              | प्रकृतिमान              | /स्वास्थ्य सि                  | थती                     |                                   |                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मृत्युचे कारण /            |                 |
| N.B : Corporation<br>कौटुंबिक इतिहास /<br>कौटुंबिक इतिहास /<br>Family- history                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n does not entertain any fro<br>पारिवारिक इतिवृत्त / Family<br>पारिवारिक इतिवृत्त /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वय                                | / आयु                              | प्रकृतिमान              | /स्वास्थ्य सि                  | थती                     |                                   |                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मृत्युचे कारण /            |                 |
| N.B : Corporation কীর্তুৰিক इतिहास / কীর্তুৰিক इतिहास / Family- history বঙিল / দিবা / Fatt आई / मাবা / Moth भाऊ / भाई / Brott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n does not entertain any fro<br>पारिवारिक इतिवृत्त / Family<br>पारिवारिक इतिवृत्त /<br>her<br>er<br>ners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | au                                | / आयु                              | प्रकृतिमान              | /स्वास्थ्य सि                  | थती                     |                                   |                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मृत्युचे कारण /            |                 |
| N.B : Corporation কীর্টুৰিক इतिहास / কীর্টুৰিক इतिहास / Family- history বঙ্জিল / দিবা / Fati আई / मারা / Moth भाऊ / भाई / Brott जिवंत / जिटि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n does not entertain any fro<br>पारिवारिक इतिवृत्त / Family<br>पारिवारिक इतिवृत्त /<br>her<br>er<br>ners<br>in / Living                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | au                                | / आयु                              | प्रकृतिमान              | /स्वास्थ्य सि                  | थती                     |                                   |                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मृत्युचे कारण /            |                 |
| N.B : Corporation कौटुंबिक इतिहास / कौटुंबिक इतिहास / Family-history बङिल /पिता / Fatt आई /माता / Moth भाऊ / भाई / Brott जिवंत /जिं मृत / मृत / मृत / मृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n does not entertain any fro<br>पारिवारिक इतिवृत्त / Family<br>पारिवारिक इतिवृत्त /<br>her<br>er<br>ners<br>in / Living                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | au                                | / आयु                              | प्रकृतिमान              | /स्वास्थ्य सि                  | थती                     |                                   |                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मृत्युचे कारण /            |                 |
| N.B : Corporation कौटुंबिक इतिहास / कौटुंबिक इतिहास / Family-history बङ्जि /पिता / Fatt आई /माता / Moth भाऊ / भाई / Brott जिवंत /जिं मृत / मृत / D बहिणी / बहिने / Sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n does not entertain any fir<br>पारिवारिक इतिवृत्त / Family<br>पारिवारिक इतिवृत्त /<br>her<br>er<br>ners<br>in / Living                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वय                                | / आयु                              | प्रकृतिमान              | /स्वास्थ्य सि                  | थती                     |                                   |                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मृत्युचे कारण /            |                 |
| N.B : Corporation कौटुंबिक इतिहास / कौटुंबिक इतिहास / Family- history बङिल /पिता / Fatt आई /माता / Moth भाऊ / भाई / Brott जिवंत /जिटि मृत / मृत / D बहिणी / बहिने / Sis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n does not entertain any fir<br>पारिवारिक इतिवृत्त / Family<br>पारिवारिक इतिवृत्त /<br>her<br>er<br>ners<br>तेत / Living                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वय                                | / आयु                              | प्रकृतिमान              | /स्वास्थ्य सि                  | थती                     |                                   |                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मृत्युचे कारण /            |                 |
| N.B : Corporation कौटुंबिक इतिहास / कौटुंबिक इतिहास / Family-history विडल /पिता / Fatt आई /माता / Moth भाऊ / भाई / Brott जिवंत /जिंहि मृत / मृत / D बहिणी / बहिने / Sis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n does not entertain any fir<br>पारिवारिक इतिवृत्त / Family<br>पारिवारिक इतिवृत्त /<br>her<br>er<br>ners<br>in / Living                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वय                                | / आयु                              | प्रकृतिमान              | /स्वास्थ्य सि                  | थती                     |                                   |                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मृत्युचे कारण /            |                 |
| N.B : Corporation कौटुंबिक इतिहास / कौटुंबिक इतिहास / Family-history बङ्जि /पिता / Fatt आई /माता / Moth भाऊ / भाई / Brott जिवंत /जिं मृत / मृत / D बहिणी / बहिने / Sie जिवंत /जिं मृत / मृत / मृत / मृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n does not entertain any fir<br>पारिवारिक इतिवृत्त / Family<br>पारिवारिक इतिवृत्त /<br>her<br>er<br>ners<br>तेत / Living                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वय                                | / आयु                              | प्रकृतिमान              | /स्वास्थ्य सि                  | थती                     |                                   |                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मृत्युचे कारण /            |                 |
| N.B : Corporation कौटुंबिक इतिहास / कौटुंबिक इतिहास / Family-history बङ्जि /पिता / Fatt आई /माता / Moth भाऊ / भाई / Brott जिवंत /जिं मृत / मृत / D बहिणी / बहिने / Sie जिवंत /जिं मृत / मृत / मृत / मृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n does not entertain any fir<br>पारिवारिक इतिवृत्त / Family<br>पारिवारिक इतिवृत्त /<br>her<br>er<br>ners<br>तेत / Livingsters<br>तेत / Livingsters<br>तेत / Livingsters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वय                                | / आयु                              | प्रकृतिमान              | /स्वास्थ्य सि                  | थती                     |                                   |                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मृत्युचे कारण /            |                 |
| N.B : Corporation कौटुंबिक इतिहास / कौटुंबिक इतिहास / Family-history विडल /पिता / Fatt आई /माता / Moth भाऊ / भाई / Brott जिवंत /जिंहि मृत / मृत / D बहिणी / बहिने / Sis जिवंत /जिंहि मृत / मृत / पृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n does not entertain any fir<br>पारिवारिक इतिवृत्त / Family<br>पारिवारिक इतिवृत्त /<br>her<br>er<br>ners<br>वेत / Living<br>sters<br>वेत / Living                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वय                                | / आयु                              | प्रकृतिमान              | /स्वास्थ्य सि                  | थती                     |                                   |                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मृत्युचे कारण /            |                 |
| N.B : Corporation कौटुंबिक इतिहास / कौटुंबिक इतिहास / हिमार्ग निवास / विक्रांड्र निवास / विक्रिंड्र निवास / विक्रांड्र निवास / विक्र निवास / | n does not entertain any fir<br>पारिवारिक इतिवृत्त / Family<br>पारिवारिक इतिवृत्त /<br>her<br>er<br>ners<br>तेत / Livingsters<br>तेत / Livingsters<br>तेत / Livingsters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | au                                | / आयु                              | प्रकृतिमान              | /स्वास्थ्य सि                  | थती                     |                                   | Age at death                  | समय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मृत्युचे कारण /<br>Cause c | of death        |
| N.B : Corporation कौटुंबिक इतिहास / कौटुंबिक इतिहास / Family-history बिडल /पिता /Fatt आई /माता /Moth भाऊ /भाई /Brott जिवंत /जिि मृत /मृत / पुत / पु बायको / नवरा / पत मुले /बच्चे /Child जिवंत /जिि मृत /मृत / प्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n does not entertain any fir<br>पारिवारिक इतिवृत्त / Family<br>/ पारिवारिक इतिवृत्त /<br>her<br>er<br>ers<br>ia / Living<br>eadsters<br>ia / Living<br>headsters<br>ia / Living                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | / आयु                              | प्रकृतिमान              | /स्वास्थ्य सि                  |                         |                                   | Age at death                  | उत्तर 'होर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मृत्युचे कारण /<br>Cause c | of death        |
| N.B : Corporation कौटुंबिक इतिहास / कौटुंबिक इतिहास / Family-history बिडल /पिता /Fatt आई /माता /Moth भाऊ /भाई /Brott जिवंत /जिि मृत /मृत / पुत / पु बायको / नवरा / पत मुले /बच्चे /Child जिवंत /जिि मृत /मृत / प्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n does not entertain any fir<br>पारिवारिक इतिवृत्त / Family<br>/ पारिवारिक इतिवृत्त /<br>her<br>er<br>ers<br>ia / Living                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | / आयु                              | प्रकृतिमान              | /स्वास्थ्य सि                  | 'होय'<br>उत्तर 'ः       | किंवा 'नाहीं' ए<br>हाँ' या 'नहीं' | Age at death                  | उत्तर 'होर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मृत्युचे कारण /<br>Cause c | of death        |
| N.B : Corporation कौटुंबिक इतिहास / कौटुंबिक इतिहास / Family- history बङ्जि /पिता / Fatt आई /माता / Moth भाऊ / भाई / Brott जिवंत /जिंहि मृत / मृत / D बहिणी / बहिने / Sie जिवंत /जिंहि मृत / मृत / प्र सुले / बच्चे / Child जिवंत /जिंहि मृत / मृत / D वैयक्तिक इतिवृत /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n does not entertain any front of the property of the propert | at history                        | / आयु<br>Age                       | प्रकृतिमान<br>State     | /स्वास्थ्य स्थि<br>e of health | 'होय'<br>उत्तर '        | आयु <i>l ।</i><br>किंवा 'नाही' र  | Age at death                  | उत्तर 'होर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मृत्युचे कारण /<br>Cause c | of death        |
| N.B : Corporation कौटुंबिक इतिहास / कौटुंबिक इतिहास / Family- history बङ्जि /पिता / Fatt आई /माता / Moth भाऊ / भाई / Brott जिवंत /जिंहि मृत / मृत / D बहिणी / बहिने / Sie जिवंत /जिंहि मृत / मृत / प्र सुले / बच्चे / Child जिवंत /जिंहि मृत / मृत / D वैयक्तिक इतिवृत /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n does not entertain any front of the property of the propert | at history                        | / आयु<br>Age                       | प्रकृतिमान<br>State     | /स्वास्थ्य स्थि<br>e of health | 'होय'<br>उत्तर '        | किंवा 'नाहीं' ए<br>हाँ' या 'नहीं' | Age at death                  | उत्तर 'होर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मृत्युचे कारण /<br>Cause c | of death        |
| N.B : Corporation कौटुंबिक इतिहास / कौटुंबिक इतिहास / Family- history विडल /पिता / Fatt आई /माता / Moth भाऊ / भाई / Brott जिवंत /जिटि मृत / मृत / D बहिणी / बहिने / Sie जिवंत /जिटि मृत / मृत / D बायको / नवरा / पत मुले / बच्चे / Child जिवंत /जिटि मृत / मृत / D वैयक्तिक इतिवृत /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n does not entertain any front of the property of the propert | at history                        | / आयु<br>Age                       | प्रकृतिमान<br>State     | /स्वास्थ्य स्थि<br>e of health | 'होय'<br>उत्तर '        | किंवा 'नाहीं' ए<br>हाँ' या 'नहीं' | Age at death                  | उत्तर 'होर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मृत्युचे कारण /<br>Cause c | of death        |
| N.B : Corporation कौटुंबिक इतिहास / कौटुंबिक इतिहास / Family history बिडल /पिता / Fatt आई / माता / Moth भाऊ / भाई / Brott जिवंत /जिंदि मृत / मृत / D बायको / नवरा / पति मुल / बच्चे / Child जितंत /जिंदि मृत / मृत / प्र सुले / बच्चे / दिनेति पेति ते जिंदि पुत / मृत / प्र सुले / बच्चे पितार्व पुत / मृत / प्र सुले / बच्चे पितार्व प्रमाण वैद्यकिय स्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n does not entertain any fir<br>पारिवारिक इतिवृत्त / Family<br>/ पारिवारिक इतिवृत्त /<br>her<br>er<br>ers<br>ia / Living<br>eadsters<br>ia / Living<br>headsters<br>ia / Living                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | al history  क असलेल्य पने पिछले । | ा एखाद्या दुख<br>माँच वर्षों के भी | प्रकृतिमान<br>State<br> | ा पाच वर्षात<br>हो of health   | 'होय'<br>उत्तर '<br>Ans | किंवा 'नाहीं' ए<br>हाँ' या 'नहीं' | Age at death                  | उत्तर 'होर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मृत्युचे कारण /<br>Cause c | of death        |

|     | होते का ?/ क्या आपको कर्भ<br>लिये किसी अस्पताल या सेव                                                                 | क्रियेसाठी आपण, एखाद्या रुण्ण<br>ो सामान्य जाँच, देखभाल, उपच<br>ा-गृह में दाखल किया गया है?<br>e for general check up, ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ार या किसी<br>Have you                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रकार की शल्य चिकित्सा के<br>ever been admitted to any                                                                                   |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | पिछले पाँच वर्षों के दौरान स्व                                                                                        | पाच वर्षात आपण कधी कामावर<br>गास्थ्य के आधार पर अपने कार्य<br>sent from palce of work or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | से अनुपस्थि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | त रहे है ?                                                                                                                                |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
|     | होता किंवा सध्या आहात का<br>संबंधित किसी रोगों से कभी<br>Are you suffering from                                       | मुत्रपिंडे, मेंदू किंवा स्थायुसंस्थ<br>?/ क्या आप यकृत, पेट, हृदर<br>पीड़ित रहे हैं या इस समय पीड़ी<br>or have you ever suffered<br>Kidney, Brain or Nervous sy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | य, फेफडे, गु<br>त हैं?/<br>I from ailm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | र्दा, मॅसिंतष्क एवं स्नायुमण्डल                                                                                                           |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
|     | कोणत्याही रोगाने आपण आ<br>निम्न रक्त चाप, कैन्सर, मि<br>समय पिड़ित हैं ? Are y                                        | मी रक्तदाब, कंकरोग, फेफरे<br>जारी होता किंवा सध्या आहात<br>रगी, अंत्रवृद्धि, जलसंग्रह. कोढ<br>ou suffering from or have<br>od Pressure, Low Blood F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कां ?/ क्या<br>एवं किसी अ<br>you ever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आप मधुमेह, क्षय, उच्च, या<br>न्य रोग से पीडित रहैं या इस<br>suffered from Diabetes,                                                       |                              | *                                                       |                               |        |                                                                                 |
| (f) | Hydrocele, Leprosy or al<br>आपणांस एखादी शारीरिक उ                                                                    | ny other disease?<br>गीव किंवा व्यंग आहे का ?/ क्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ा आपके शार्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
| (g) |                                                                                                                       | ave any bodily defect or def<br>। झाली होती का ?क्या आप कभ<br>any accident or injury ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त हुए हैं या आपको चोट लगी                                                                                                                 |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
| (h) |                                                                                                                       | वा आपण कधी उपयोग केला ? 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गप उपयोग व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | करते है या आपने कभी उपयोग<br>-                                                                                                            |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
|     | (i) मद्यपान /मद्यपान /Alcho                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
|     | (ii) नशाकारक पदार्थ /नशीव                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
| 1   |                                                                                                                       | /अन्य कोई मादक द्रव्य /Any                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
|     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                                                                                                                                           |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
|     |                                                                                                                       | खू /किसी भी रुप में तम्बाकू /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                              |                                                         | 1000                          |        |                                                                                 |
|     | What has been your usu                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                              | E. A.                                                   |                               |        |                                                                                 |
|     | तपासणी करावी लागली होती व<br>क्या आपको या आपके पार्टनर/<br>उपचार या जाँच परिक्षा करने की<br>Have you or your partner/ | साथी यांस कधी यकृत संबंधी किंव<br>हा किंवा सध्या आपण या रोगांवर उ<br>'जीवनसाथी को कभी यकृत संबंधी<br>जीवनस्यकता पड़ी है, या वर्तमान ये<br>(spouse ever required or at I<br>i in connection with Hepatitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पचार घेत आ<br>ो या एड्स के<br>i आप इन बीम<br>present ava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हात का ?<br>संबंध में चिकित्सक से परामर्श,<br>गरियों के लिए उपचार ले रहे हैं?<br>illing /undergoing medical                               |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
| 12. | जर प्रस्ताव वैद्यकीय तपासणी<br>बिना चिकित्सा मामलों में कृप                                                           | शिवाय (विना वैद्यकीय) असले<br>या सही उंचाई सेंटी मीटर में एवं<br>please state exact Heig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | तर माहिती ह<br>वजन कि. ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | या ?<br>प्रा. में लिखे (बिना जूते)                                                                                                        | पाव                          | दत्राणाशिवाय तुमची<br>से.मी. /उंचाई/H                   |                               |        | पड्यासह तुमचे अचूक वजन<br>5. ग्रॅ./वजन /Weight                                  |
|     | (without shoes)                                                                                                       | विमेच्छू स्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ोयांसाठी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | /स्त्री बीमार्थी /FOR                                                                                                                     | FEN                          | IALE PROPO                                              | DNENT                         |        |                                                                                 |
| 13A | आपण सध्या गरोदर                                                                                                       | शेवटच्या बाळंतपणाची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आपला कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भी गर्भपात किंवा भ्रूणपात झाला ह                                                                                                          | होता क                       | ग ? किंवा सिद्धोरियन                                    | झाले होते का                  | )      | आपल्या शेवटच्या मासिक                                                           |
|     | आहांत कां ?<br>क्या आप गर्भवती है ?<br>Are you pregnant now?                                                          | तारीख द्या<br>अंतिम प्रसव तिथि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | असल्यास त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तपशील द्या / क्या आपको कभी<br>यदि हाँ तो वि<br>you had any abortion or n<br>If so, gi                                                     | गर्भपात<br>वरणे f<br>niscari | त या गर्भस्त्राव या सि<br>देजिये ।<br>riage or Ceasaria | जिरिन हुआ था                  | ? पाळी | ची तारीख द्या. पिछले मासिक<br>धर्म की तिथि लिखिये ।<br>ate of last Menstruation |
|     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
| 13B | पतिचे पूर्ण नाव / पति का प                                                                                            | रा नाम / Husband's full nar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
|     | त्यांचा व्यवसाय / उनका व्य                                                                                            | The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
|     |                                                                                                                       | ही वार्षिक आय / His annual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | income                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
| 120 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Details of Husband's Insura                                                                                                               |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
| 30  | पॉलिसी क्रमांक                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                              | A                                                       | D                             |        |                                                                                 |
|     | पॉलिसी संख्या                                                                                                         | पॉलिसी एल.आय.सी.ऑफ<br>बीमा कृंपनियों पते सहित जहाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | हुन मानाल पात<br>इंडीया च्या अ<br>से पिछली पॉर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | लेसी खरीदी केली असेल (जर मार्ग<br>सतील तर शाखेचे नाव नमुद करा.<br>लेसी/पॉलिसीयाँ खरीदी गई हैं (य्र्ग<br>की हैं तो शाखा/मं. का.का नाम दें. | दे                           | विम्याची रक्कम<br>बीमा धन                               | विम्याचे कोष्टव<br>तालिका एवं |        | पॉलिसीची हल्लीची स्थिती पॉलिसी की वर्तमान स्थित                                 |
|     | Policy Number                                                                                                         | Insurance companies f<br>have been purchased w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rom where<br>ith address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | the previous policy/policies<br>(if previous policies are from                                                                            |                              |                                                         | Table & 1                     |        | Present status of the policy                                                    |
|     |                                                                                                                       | LIC of India,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | give name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | of Branch / D.O.                                                                                                                          |                              | Sum Assured                                             | Table & I                     | OIIII  | resent status of the policy                                                     |
|     |                                                                                                                       | ZE THEFT WAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
|     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                              |                                                         | The Part of                   |        |                                                                                 |
|     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
|     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
|     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                              |                                                         |                               |        |                                                                                 |
|     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                              |                                                         |                               |        | -                                                                               |

| 14 आपण घेऊ इच्छित असलेल्या ह्या योजनेच्या सर्व अटी व नियम आपल्याला पूर्णपणे समजल्या आहेत का?                                                                                               | होय / नाही                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| क्या आपने प्रस्तावित योजना के नियम तथा शर्तों को पूर्णतः समझ लिया है?                                                                                                                      | हाँ / नहीं                                                          |
| Have you understood fully the terms & conditions of the plan you propose to take?                                                                                                          | Yes / No                                                            |
| 15 नियोजित योजनेच्या शर्ती आणि अटी आपणास एजंटने समजावून सांगितल्या आहेत का ?                                                                                                               | होय / नाही                                                          |
| क्या हमारे अभिकर्ता ने आपको प्रस्तावित योजना की नियम व शर्ते समझायी है ?                                                                                                                   | हाँ / नहीं                                                          |
| Whether the terms & conditions of the proposed plan have been explained to you by the Agent?                                                                                               | Yes / No                                                            |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
| 16 आपली अधिक चांगली सेवा करण्यासाठी कृपया पुढील माहिती नमूद करा./ आपको बेहतर सेवा देने हेतु निम्निलिर                                                                                      | वत जानकारी दे। / Please provide the following information to help   |
| us to serve you better.                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| बँक खात्याचा तपशील / आपके बँक खाते का विवरण / Bank Account details :                                                                                                                       |                                                                     |
| a) खाल्याचा प्रकार / खाते का प्रकार / Type of Account : बचत / चालू / Saving / Current                                                                                                      |                                                                     |
| b) आपला खाते क्रमांक / आपले खाते का क्रमांक / Your Account No.                                                                                                                             |                                                                     |
| c) ९ अंकी एमआयसीआर / नौ अंकवाला एमआयसीआर / ९ Digits MICR :                                                                                                                                 |                                                                     |
| d) आईएफएससी कोड / IFSC Code :                                                                                                                                                              |                                                                     |
| e) आपल्या बँकेचे नांव व पत्ता / आपके बँक का नाम और पता / Name & address of your bank :                                                                                                     |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
| ह्या प्रपत्राबरोबर रह केलेला चेक किंवा त्याची फोटोप्रत जोडा / रह किये हुए धनादेश की एक छाया - प्रत इस प्रपर<br>Attach a photocopy or cancelled cheque with the form                        | त्र के साथ जोडीए।                                                   |
| प्रस्तावकर्त्याद्वारे घोषणापत्रं / प्रस्तावक द्वारा घोषणा /DECLA                                                                                                                           | ADATION BY THE DECODOSED                                            |
| अस्तावकत्वाद्वार वापणायत्र / अस्तावक द्वारा वापणा / DECLA                                                                                                                                  | ANATION BY THE PROPOSER                                             |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                   | भारतीय आयर्विमा मंद्रलास                                            |
| पारमा आधार कार्राचे केतासूची विक्रमा सनिक आसरेन्ट्रीफिकेशन ऑशोरिटी ऑफ टेंटिसा (स्थासरीएथर                                                                                                  | ग करन होण्याच्य पाधिकत करीत आहे                                     |
| मी,<br>माझ्या आधार कार्डाचे केवायसी विवरण युनिक आयडेन्टीफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (युआयडीएआय<br>मी,                                                                                         | अशी त्यक्ति जिन्या जीवनाचा विमा घेण्याचे येथे पस्तावित              |
| केलेले आहे, याद्वारे घोषित करीत आहे की खालील नमूद विधाने व उत्तरे माझ्याद्वारे प्रश्न पूर्णपणे समजल्यानं                                                                                   | ातर देण्यात आलेली आहेत आणि प्रत्येक <b>बाबतीत</b> ती सत्य व परिपर्ण |
| आहेत आणि मी कोणतीही माहिती लपवून ठेवलेली नाही आणि मी याद्वारे मान्य व जाहीर करीत आहे व                                                                                                     |                                                                     |
| महामंडळादरम्यान झालेल्या हमीच्या कराराचा आधार असेल आणि असे की जर सदरहू करारामध्ये एखादे                                                                                                    | असत्य प्रतिज्ञापर्वक विधान असेल तर त्याबाबत वेळोवेळी सधारणा         |
| करण्यात आलेल्या विमा अधिनियम, 1938 चे कलम 45 मधील तरतुदी नुसार व्यवहार केला जाईल.                                                                                                          |                                                                     |
| सध्या प्रचलित व लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्यातील तरतूद, वापर, रीत किंवा विहित करण्यात                                                                                                    | आल्यानुसार एखादा डॉक्टर, रूग्णालय आणि/अथवा कर्मचाऱ्यास              |
| माझ्याबाबतची माझे आरोग्य किंवा रोजगाराविषयीची एखादे ज्ञान किंवा माहिती गोपनीयतेच्या तत्वाच्या आधा                                                                                          |                                                                     |
| आणि उत्तराधिकारी किंवा अन्य एखादा व्यक्ति किंवा अनेक व्यक्ति, ज्यांचा मला जारी करण्यात आलेल्या योज                                                                                         | ना करारनाम्यामध्ये काही हितसंबंध असेल, यादारे मान्य करीत आहेत       |
| की असे प्राधिकरण, ज्यांच्याकडे असे ज्ञान किंवा माहिती आहे, यांना कोणत्याही वेळी असे ज्ञान किंवा माहि                                                                                       | हेती महामंडळाकडे उघड करण्याचे स्वातंत्र्य राहील.                    |
| आणि मी पुढे असेही मान्य करीत आहे की, प्रस्ताव सादर करण्याच्या तारखेनंतर परंतु पहिली हप्त्याची प                                                                                            |                                                                     |
| किंवा माझ्या आर्थिक स्थिती संबंधाने अथवा माझे स्वतःचे किंवा माझ्या परिवारातील कोणा सदस्याचे स                                                                                              | र्वसाधारण आरोग्य काही प्रतिकुल घटना घडल्यास किंवा (2) जर            |
| महामंडळाच्या कोणत्याही कार्यालयाकडे केलेला विम्यासाठीचा प्रस्ताव किंवा माझ्या जीविताच्या पुनरूज्जीव                                                                                        |                                                                     |
| त्यामध्ये फरक झाला किंवा वाढीव प्रिमियम अन्वये स्वीकृत करण्यात आला किंवा प्रस्तावित करण्यात अ                                                                                              | ाल्याखेरीज अन्य अटीनुसार त्यावर बोजा असेल तर मी त्याबाबत            |
| महामंडळास लिखित स्वरूपात विमा स्विकृत करण्याच्या अटींचा पुनर्विचार करण्याचे कळविन . माझ्या बाजूने                                                                                          | झालेल्या कोणत्याही कसुरीमुळे हा करार वेळोवेळी सुधारणा करण्यात       |
| आलेल्या विमा अधिनियम, 1938 च्या कलम 45 मधील तरतुदीनुसार योग्य त्या कार्यवाहीस पात्र राहील.                                                                                                 |                                                                     |
| मैं                                                                                                                                                                                        | भारतीय जीवन बीमा निगम                                               |
| को प्राधिकार देता हूं कि यूनीक आइडेन्टीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इन्डिया (यूआईडीएआई) से आधार के                                                                                                    | मेरे केवाईसी विवरण ले ले.                                           |
| में                                                                                                                                                                                        | जिसे इसमें जीवन बीमा के                                             |
| लिए प्रस्तावित किया गया हैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रकथन एवं उत्तर मेरे द्वारा प्रश्नों को पूरी त                                                                          | तरह समझ लेने के बाद दिए गए है और वह सही है तथा प्रत्येक विवरण       |
| पूर्ण है और मैंने कोई सूचना छिपाई नही हैं। मैं एतद द्वारा इस बात से सहमत हूँ और घोषणा करता/करती हूँ वि                                                                                     | न ये प्रकथन और यह घोषणा मेरे एवं भारतीय जीवन बीमा निम के मध्य       |
| बीमा अनुबन्ध के आधार होंगे और यदि इसमें कोई असत्य कथन पाया जायेंगा तो समय समय पर यथा बीम                                                                                                   | ग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 45 के प्रावधानों के          |
| अनुसार कार्यवाही की जाएगी।                                                                                                                                                                 | 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                             |
| किसी प्रचलित कानून, रीति रिवाज, रस्म या प्रथा के कारण चिकित्सक, अस्पताल और/या नियोजक को                                                                                                    | गोपनीयता के आधार पर मेरे स्वास्थ्य या नौकरी से संबंधित किसी         |
| जानकारी या सूचना के प्रकट करने पर प्रतिबन्ध होते हुए भी मैं मेरे उत्तराधिकारी, वसीयती प्रबन्धकर्ता, कारि                                                                                   | न्दा/मुख्तार, अभ्यथी अथवा अन्य कोई व्यक्ति , जिनके किसी प्रकार      |
| के भी हित मुझे जारी की जाने वाली पॉलिसी प्रसंविदा में निहित है. एतद्द्वारा सहमित देते हैं कि ऐसे व्यक्ति या                                                                                | संस्थान जिनक पास इस प्रकार का काई सूचना हा, व भारताय जावन           |
| बीमा निगम को ऐसी सभी सूचना देने के लिए स्वतंत्र होंगे।                                                                                                                                     | 20.01.2.4.4.01.2.4.4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.        |
| पुनः मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि प्रस्ताव किए जाने की तिथी के बाद किंतु प्रथम प्रीमियम रसीद जारी होने से                                                                                  | पूर्व यदि (1) मर व्यवसाय म काइ परिवर्तन हो जाता है या मरा आर्थिक    |
| स्थिति अथवा मेरे या मेरे परिवार के किसी ध्यक्ति के स्वास्थ्य से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न                                                                                   | त्र हा जाता ह अथवा याद (2) मरा काइ बामा प्रस्ताव या पालिसा का       |
| पुनर्चलन कराने के लिए निगम के किसी कार्यालय को प्रस्तुत किया गया कोई आवेदन पत्र वापस ले लिया ज                                                                                             | ाता है या रह, स्थागत या अस्वाकृत कर दिया जाता है या आतारक्त         |
| प्रीमियम या गहन (लीन) के आधार पर स्वीकृत किया जाता हैं अथवा प्रस्तावित शर्तों के अलावा अन्य शर्तों प                                                                                       | पर स्वाकार किया जाता ह ता म बामा स्वाकार किए जान संबंधा शता         |
| पुनः विचार करने के संबंध में निगम को लिखित रूप से तत्काल सूचना प्रेषित करूँगा/करूँगी। मेरी ओर र                                                                                            | स हुई किसी चूक के करिण समय समय पर बामा कानून (संशोधन)               |
| अधिनियम, 2015 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार इस संविदा पर कार्यवाही की जाएगी।                                                                                                          | authoriza LIC of India to take my KVC details of                    |
| Aadhaar from the Unique Identification Authority of India (UIDAI).                                                                                                                         | authorize LIC of India to take my KYC details of                    |
|                                                                                                                                                                                            | erein being proposed to be assured do hereby declare that           |
| the foregoing statements and answers have been given by me after fully understanding the                                                                                                   | e questions and the same are true and complete in every             |
| particular and that I have not withheld any information and I do hereby agree and declare the                                                                                              |                                                                     |
| of the contract of assurance between me and the Life Insurance Corporation of India and                                                                                                    |                                                                     |
| contract shall be dealt with as per provisions of Section 45 of the insurance Laws (Amen Notwithstanding the provision of any law, usage, Custom or convention for the time being in       |                                                                     |
| divulging any knowledge or information about me concerning my health or employment on the                                                                                                  |                                                                     |
| and assignees or any other person or persons, having interest of any kind whatsoever in                                                                                                    | the policy contract issued to me, hereby agree that such            |
| authority, having such knowledge or information, shall at any time be at liberty to divulge a                                                                                              |                                                                     |
| And I further agree that if after the date of submission of the proposal but before the issue                                                                                              | or First Premium Receipt (i) any change in my occupation            |
| or any adverse circumstances connected with my financial position or the general health of<br>if a proposal for assurance or an application for revival of a policy on my life made to any | office of the Corporation has been withdrawn or dropped             |
| deferred or accepted at an increased premium or subject to a lien or on terms other that                                                                                                   | an as proposed I shall forthwith intimate the same to the           |

| साक्ष                 | ted at दिनांक / on the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | day of /माह20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | भीदाराची सही /साक्षी के हस्ताक्षर /Signature of witness                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नाव                   | /नाम/Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ज्याचा विमा उतरावयाचा त्याची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| धंदा                  | r /व्यवसाय / Occupation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगुठा निशान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पत्त                  | ा /पता /Address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Signature or Thumb impression of the person whose life is proposed to be assured                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,                     | जपत्र भरणाऱ्या व्यक्तिचे घोषणापत्र (प्रस्ताव प्रपत्रातील भाषेपेक्षा<br>''मी ह्या अन्वये घोषित करतो की मी वरील सर्व प्रश्न प्रस्तावकाल<br>जपत्र भरने वाले व्यक्ति का घोषणापत्र (प्रस्तावपत्र की भाषा से उ<br>''मैं एतदृद्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने प्रस्तावक को उपरोक्त प्रः<br>Declaration by the person filling in the form (in case f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ना पूर्णपणे समजावून दिले आहेत आणि प्रस्तावकाने<br>अगल अलग भाषा में प्रपत्र पूर्ण किया है या हस्ताक्षर<br>श्न भलीभाँति समझा दिये हैं और उनके द्वारा दिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ा दिलेली उत्तरे सत्यतेने नोंदली आहेत.''<br>र किया है तो :)<br>गये उत्तरों को सही लिखा हैं''।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | 'I hereby declare that I have fully explained the above                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| घोष                   | णकर्त्याचे नांव /घोषणाकर्ता का नाम /Declarants Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| घोष                   | णकर्त्याचे पत्ता /घोषणाकर्ता का पता/Address of the Declarants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | स्वाक्षरी / हस्ताक्षर/ Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,                     | मी येथे स्पष्ट करू इच्छितों की श्री / श्रीमती (नांव, हुंद्दा, व्यवसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | यांनी हे प्रपत्र तथा दस्ताऐवजांत लिहीलेली माहिती मला पूर्णपणे समज्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | ह्या प्रस्तावित कराराचे सर्व परिणाम मी समजून घेतले आहेत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | ''मैं यह प्रमाणित करता हूँ की श्री /श्रीमती (नाम, पद, व्यवसाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | ने इस प्रपत्र तथा दस्तावेज में दी गयी बाते मुझे पूर्ण रूपसे समझ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | प्रस्तावित करार के सभी परिणाम मैंने समझ लिए है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ज्याचा विमा उतरावयाचा त्याची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (                     | I certify that the contents of the form and documents<br>(Name, Designation, Occupation) Mr./Mrs.<br>and I have understood the significance of the propos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बीमें के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगुठा निशान<br>Signature or Thumb impression of the person<br>whose life is proposed to be assured                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | तथा उन्हे यह घोषणा भी करनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ा से हो सकती है और जो निगम से संबंधित न हो, प्रमाणित की जानी चार्<br>तु का अर्थभाषा में पूर्णतः समझा दिया है उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| !                     | प्रस्तावक बीमार्थी ने उन्हे भलीभाँति समझने के बाद ही प्रस्तावप<br>In case the Proposer illiterate, his/her thumb impres<br>nected with the Corporation and this declaration sho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | त्र पर अपना अंगूठा निशान लगाया है।''<br>ssion should be attested by a person of sl<br>ould be made by him.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tanding whose identity can easily be established, but unco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | and that the proposer/Life to be Assured has affixed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | his thumb impression above after fully ur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nderstanding the contents thereof. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| घोष                   | and that the proposer/Life to be Assured has affixed<br>णकर्त्याचे नांव /घोषणाकर्ता का नाम /Name of the Declarants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | his thumb impression above after fully ur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nderstanding the contents thereof. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| घोष                   | and that the proposer/Life to be Assured has affixed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | his thumb impression above after fully ur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nderstanding the contents thereof. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| घोष                   | and that the proposer/Life to be Assured has affixed<br>णकर्त्याचे नांव /घोषणाकर्ता का नाम /Name of the Declarants<br>गकर्त्याचे पत्ता /घोषणाकर्ता का पता/Address of the Decla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I his thumb impression above after fully ur<br>s<br>arants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nderstanding the contents thereof. "<br>स्वाक्षरी /हस्ताक्षर/Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| घोष                   | and that the proposer/Life to be Assured has affixed<br>णकर्त्यांचे नांव /घोषणाकर्ता का नाम /Name of the Declarants<br>गकर्त्यांचे पत्ता /घोषणाकर्ता का पता/Address of the Declarants<br>विमा अधिनियम (सुधारणा) अध्यादेश,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I his thumb impression above after fully ur<br>s<br>arants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nderstanding the contents thereof. " स्वाक्षरी /हस्ताक्षर/Signature (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 45 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| घोष                   | and that the proposer/Life to be Assured has affixed गकर्त्यांचे नांव /घोषणाकर्ता का नाम /Name of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता /घोषणाकर्ता का पता/Address of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता /घोषणाकर्ता का पता/Address of the Declarants पत्ता /घोषणाकर्ता का पता/Address of the Declarants पत्ता /घोषणाकर्ता का प्रधादेश, SECTION 45 OF कोणतीही आयुर्विमा योजना, योजनेच्या तारखेपासून म्हणजेच दिवसापासून अथवा योजनेच्या रायडरच्या दिवसापासून, यापै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | his thumb impression above after fully ur s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स्वाक्षरी /हस्ताक्षर/Signature स्वाक्षरी /हस्ताक्षर/Signature (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 45 / NDMENT) ACT, 2015 कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूज्जीवनाच्या कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूज्जीवनाच्या कालावधीत प्रश्नाधीन असू शकत नाही.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| धोषण्                 | and that the proposer/Life to be Assured has affixed णकर्त्यांचे नांव / घोषणाकर्ता का नाम / Name of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants अधिनियम (सुधारणा) अध्यादेश, SECTION 45 OF कोणतीही आयुर्विमा योजना, योजनेच्या तारखेपासून म्हणजेच र दिवसापासून अथवा योजनेच्या रायडरच्या दिवसापासून, र एखादी आयुर्विमा योजना, योजनेच्या तारखेपासून म्हणजेच र दिवसापासून अथवा योजनेच्या रायडरच्या दिवसापासून, परंतु याकरीता असा निर्णय कोणत्या आधारे घेण्यात आलेला वारसदार किंवा उत्तराधिकारी यांच्यासह पत्रव्यवहार केला पां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I his thumb impression above after fully unservants  arants  , 2015 चे कलम 45 / बीमा कानून ( THE INSURANCE LAWS (AME)  व योजना जारी करण्यात आल्याच्या किंवा जोखिम की जो सर्वात अखेरचा असेल त्यापासून तीन वर्षांच्योजना जारी करण्यात आल्याच्या किंवा जोखिम व<br>यापैकी जो सर्वात अखेरचा असेल त्यापासून ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्वाक्षरी /हस्ताक्षर/Signature स्वाक्षरी /हस्ताक्षर/Signature संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 45 / NDMENT) ACT, 2015 कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूज्जीवनाच्या कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूज्जीवनाच्या कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूज्जीवनाच्या कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूज्जीवनाच्यान वर्षांच्या कालावधीत फसवणुकीच्या आधारे प्रश्नाधीन असू शकाखित स्वरूपात विमाधारक किंवा विमाधारकाचे कायदेशीर प्रतिनिधी किं                                 |
| द्योषण<br>गोषण<br>(1) | and that the proposer/Life to be Assured has affixed णकर्त्यांचे नांव / घोषणाकर्ता का नाम / Name of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants जिस्सा अधिनियम (सुधारणा) अध्यादेश, SECTION 45 OF कोणतीही आयुर्विमा योजना, योजनेच्या तारखेपासून म्हणजेच विवसापासून अथवा योजनेच्या रायडरच्या विवसापासून, परंतु याकरीता असा निर्णय कोणत्या आधारे घेण्यात आलेला वारसदार किंवा उत्तराधिकारी यांच्यासह पत्रव्यवहार केला पार स्पष्टीकरण 1 - था त्रण कलमाच्या उदेशाने, ''फसवणूक'' या आयुर्विमा योजना जारी करण्यास प्रवृत्त करण्याच्या दृष्टीने खा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I his thumb impression above after fully ur arants  2015 चे कलम 45 / बीमा कानून ( THE INSURANCE LAWS (AME)  व योजना जारी करण्यात आल्याच्या किंवा जोखिम की जो सर्वात अखेरचा असेल त्यापासून तीन वर्षांच्योजना जारी करण्यात आल्याच्या किंवा जोखिम व<br>यापैकी जो सर्वात अखेरचा असेल त्यापासून ती<br>( आहे ती कारणे व सामग्री विषयी विमाकर्त्यांने लिं<br>हिजे.  । शब्दाचा अर्थ म्हणजे विमाधारकाने किंवा त्याचे प्रति<br>लीलपैकी कोणतेही केले गेलेले कृत्य होय.                                                                                                                                                                                                                                                       | स्वाक्षरी /हस्ताक्षर/Signature स्वाक्षरी /हस्ताक्षर/Signature संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 45 / NDMENT) ACT, 2015 कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूज्जीवनाच्या कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूज्जीवनाच्या कालावधीत प्रश्नाधीन असू शकत नाही. कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूज्जीवनाच्या वावधीत फसवणुकीच्या आधारे प्रश्नाधीन असू शक                                                                                                                                                 |
| ह्योषण<br>विषय<br>(1) | and that the proposer/Life to be Assured has affixed णकर्त्यांचे नांव / घोषणाकर्ता का नाम / Name of the Declarants गकर्त्यांचे नांव / घोषणाकर्ता का नाम / Name of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का प्राथित अध्यावेषा अधिनियम (सुधारणा) अध्यावेषा, SECTION 45 OF कोणतीही आयुर्विमा योजना, योजनेच्या तारखेपासून म्हणजेच विवसापासून अथवा योजनेच्या रायडरच्या दिवसापासून, यापै एखादी आयुर्विमा योजना, योजनेच्या तारखेपासून म्हणजेच विवसापासून अथवा योजनेच्या रायडरच्या दिवसापासून, परंतु याकरीता असा निर्णय कोणत्या आधारे घेण्यात आलेला वारसदार किंवा उत्तराधिकारी यांच्यासह पत्रव्यवहार केला पा स्पष्टीकरण 1 - था लए कलमाच्या उद्देशाने, ''फसवणूक'' या आयुर्विमा योजना जारी करण्यास प्रवृत्त करण्याच्या दृष्टीने खा (अ) सल्ला, खरे तर असा जो सत्य नाही आणि जो सत्य अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I his thumb impression above after fully under the searants  4. 2015 चे कलम 45 / बीमा कानून ( THE INSURANCE LAWS (AME)  4. योजना जारी करण्यात आल्याच्या किंवा जोखिम की जो सर्वात अखेरचा असेल त्यापासून तीन वर्षांच्यां केंवा जोखिम वर्षांजना जारी करण्यात आल्याच्या किंवा जोखिम वर्षांजना जारी करण्यात आल्याच्या किंवा जोखिम वर्षांजना जारी करण्यात आल्याच्या किंवा जोखिम वर्षांक तो कारणे व सामग्री विषयी विमाकर्त्यांने लिं  हिजे.  1. शब्दाचा अर्थ म्हणजे विमाधारकाने किंवा त्याचे प्रति  लीलपैकी कोणतेही केले गेलेले कृत्य होय.  1. वोह यावर विमाधारकाचा स्वतःचा विश्वास नाही;                                                                                                                                | स्वाक्षरी /हस्ताक्षर/Signature स्वाक्षरी /हस्ताक्षर/Signature संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 45 / NDMENT) ACT, 2015 कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूजजीवनाच्या कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूजजीवनाच्या कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूजजीवनाच्यान वर्षांच्या कालावधीत फसवणुकीच्या आधारे प्रश्नाधीन असू शक खित स्वरूपात विमाधारक किंवा विमाधारकाचे कायदेशीर प्रतिनिधी किं                                                                                                         |
| द्योषण<br>गोषण<br>(1) | and that the proposer/Life to be Assured has affixed णकर्त्यांचे नांव / घोषणाकर्ता का नाम / Name of the Declarants गकर्त्यांचे नांव / घोषणाकर्ता का नाम / Name of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पत्ता / अध्यादेश, SECTION 45 OF कोणतीही आयुर्विमा योजना, योजनेच्या तारखेपासून म्हणजेच विवसापासून अथवा योजनेच्या रायडरच्या दिवसापासून, यापै एखादी आयुर्विमा योजना, योजनेच्या तारखेपासून म्हणजेच विवसापासून अथवा योजनेच्या रायडरच्या दिवसापासून, परंतु याकरीता असा निर्णय कोणत्या आधारे घेण्यात आलेला वारसदार किंवा उत्तराधिकारी यांच्यासह पत्रव्यवहार केला पा स्पष्टीकरण 1 - था लए कलमाच्या उद्देशाने, ''फसवणूक'' या आयुर्विमा योजना जारी करण्यास प्रवृत्त करण्याच्या दृष्टीने खा (अ) सल्ला, खरे तर असा जो सत्य नाही आणि जो सत्य अ (व) एखाद्या बाबीविषयी ज्ञान किंवा भरवसा असतानाही अर्श                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I his thumb impression above after fully ur<br>arants  , 2015 चे कलम 45 / बीमा कानून (<br>THE INSURANCE LAWS (AME)<br>व योजना जारी करण्यात आल्याच्या किंवा जोखिम<br>की जो सर्वात अखेरचा असेल त्यापासून तीन वर्षांच्यां<br>योजना जारी करण्यात आल्याच्या किंवा जोखिम व<br>यापैकी जो सर्वात अखेरचा असेल त्यापासून ती<br>व आहे ती कारणे व सामग्री विषयी विमाकर्त्यांने लिं<br>हिजे.<br>(शब्दाचा अर्थ म्हणजे विमाधारकाने किंवा त्याचे प्रति<br>लीलपैकी कोणतेही केले गेलेले कृत्य होय.<br>वाहे यावर विमाधारकाचा स्वतःचा विश्वास नाही;<br>वी बाब विमाधारकाचा स्वतःचा विश्वास नाही;                                                                                                                                       | स्वाक्षरी /हस्ताक्षर/Signature स्वाक्षरी /हस्ताक्षर/Signature संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 45 / NDMENT) ACT, 2015 कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूजजीवनाच्या कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूजजीवनाच्या कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूजजीवनाच्यान वर्षांच्या कालावधीत फसवणुकीच्या आधारे प्रश्नाधीन असू शक खित स्वरूपात विमाधारक किंवा विमाधारकाचे कायदेशीर प्रतिनिधी किं                                                                                                         |
| द्योषण<br>गोषण<br>(1) | and that the proposer/Life to be Assured has affixed णकर्त्यांचे नांव / घोषणाकर्ता का नाम / Name of the Declarants गकर्त्यांचे नांव / घोषणाकर्ता का नाम / Name of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants जिसा अधिनियम (सुधारणा) अध्यादेश, SECTION 45 OF कोणतीही आयुर्विमा योजना, योजनेच्या तारखेपासून म्हणजेच विवसापासून अथवा योजनेच्या रायडरच्या विवसापासून, याप एखादी आयुर्विमा योजना, योजनेच्या तारखेपासून म्हणजेच विवसापासून अथवा योजनेच्या रायडरच्या विवसापासून, परंतु याकरीता असा निर्णय कोणर्त्या आधारे घेण्यात आलेला वारसदार किंवा उत्तराधिकारी यांच्यासह पत्रव्यवहार केला पा स्पष्टीकरण 1 - था लए कलमाच्या उद्देशाने, ''फसवणूक'' या आयुर्विमा योजना जारी करण्यास प्रवृत्त करण्याच्या दृष्टीने खा (अ) सल्ला, खरे तर असा जो सत्य नाही आणि जो सत्य अ (व) एखाद्या बाबीविषयी ज्ञान किंवा भरवसा असतानाही अर्थ (क) फसवणूकीच्या संज्ञेत बसणारे एखादे अन्य कृत्य; आणि                                                                                                                                                                                     | I his thumb impression above after fully ur<br>arants  , 2015 चे कलम 45 / बीमा कानून (<br>THE INSURANCE LAWS (AME)<br>व योजना जारी करण्यात आल्याच्या किंवा जोखिम<br>की जो सर्वात अखेरचा असेल त्यापासून तीन वर्षां<br>योजना जारी करण्यात आल्याच्या किंवा जोखिम<br>की जो सर्वात अखेरचा असेल त्यापासून ती<br>। आहे ती कारणे व सामग्री विषयी विमाकर्त्यांने लिं<br>हिजे.  । शब्दाचा अर्थ म्हणजे विमाधारकाने किंवा त्याचे प्रति<br>लीलपैकी कोणतेही केले गेलेले कृत्य होय.  ।हे यावर विमाधारकाचा स्वतःचा विश्वास नाही;<br>।री बाब विमाधारकाचारे सक्रियरित्या दडवून ठेवणे;                                                                                                                                               | स्वाक्षरी /हस्ताक्षर/Signature स्वाक्षरी /हस्ताक्षर/Signature संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 45 / NDMENT) ACT, 2015 कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूजजीवनाच्या कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूजजीवनाच्या कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूजजीवनाच्यान वर्षांच्या कालावधीत फसवणुकीच्या आधारे प्रश्नाधीन असू शक खित स्वरूपात विमाधारक किंवा विमाधारकाचे कायदेशीर प्रतिनिधी किं                                                                                                         |
| घोष<br>घोषण           | and that the proposer/Life to be Assured has affixed णकर्त्यांचे नांव / घोषणाकर्ता का नाम / Name of the Declarants गकर्त्यांचे नांव / घोषणाकर्ता का नाम / Name of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants जिसा अधिनियम (सुधारणा) अध्यादेश, SECTION 45 OF कोणतीही आयुर्विमा योजना, योजनेच्या तारखेपासून म्हणजेच विवसापासून अथवा योजनेच्या रायडरच्या विवसापासून, याप एखादी आयुर्विमा योजना, योजनेच्या तारखेपासून म्हणजेच विवसापासून अथवा योजनेच्या रायडरच्या विवसापासून, परंतु याकरीता असा निर्णय कोणत्या साधारे घेण्यात आलेला वारसदार किंवा उत्तराधिकारी यांच्यासह पत्रव्यवहार केला पा स्पष्टीकरण 1 - था लए कलमाच्या उद्देशाने, ''फसवणूक'' या आयुर्विमा योजना जारी करण्यास प्रवृत्त करण्याच्या दृष्टीने खा (अ) सल्ला, खरे तर असा जो सत्य नाही आणि जो सत्य अ (ब) एखाद्या बाबीविषयी ज्ञान किंवा भरवसा असतानाही अर्थ (क) फसवणूकीच्या संज्ञेत बसणारे एखादे अन्य कृत्य; आणि (उ) असे एखादे कृत्य किंवा वगळणूक जी विशेषत्वे कायदानं (ड) असे एखादे कृत्य किंवा वगळणूक जी विशेषत्वे कायदानं वा क्षा के प्रवास कायदानं कायदानं वा | I his thumb impression above after fully ur sarants  , 2015 चे कलम 45 / बीमा कानून ( THE INSURANCE LAWS (AME)  व योजना जारी करण्यात आल्याच्या किंवा जोखिम की जो सर्वात अखेरचा असेल त्यापासून तीन वर्षांच्योजना जारी करण्यात आल्याच्या किंवा जोखिम व्यापैकी जो सर्वात अखेरचा असेल त्यापासून ती वर्षांच्योजना जारी करण्यात आल्याच्या किंवा जोखिम व्यापैकी जो सर्वात अखेरचा असेल त्यापासून ती । आहे ती कारणे व सामग्री विषयी विमाकर्त्यांने लिंहिजे.    शब्दाचा अर्थ म्हणजे विमाधारकाने किंवा त्याचे प्रतिलीलपैकी कोणतेही केले गेलेले कृत्य होय.   हो यावर विमाधारकाचा स्वतःचा विश्वास नाही;   वाब विमाधारकाचा स्वतःचा विश्वास नाही;   वाब विमाधारकाचा स्वतःचा किंवा स्वाही;   वाक क्षाचारकाचा स्वतःचा विश्वास नाही; | स्वाक्षरी /हस्ताक्षर/Signature स्वाक्षरी /हस्ताक्षर/Signature संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 45 / NDMENT) ACT, 2015 कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूज्जीवनाच्या कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूज्जीवनाच्या कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूज्जीवनाच्या कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूज्जीवनाच्यान वर्षांच्या कालावधीत फसवणुकीच्या आधारे प्रश्नाधीन असू शक                                                                                                |
| धोषण्                 | and that the proposer/Life to be Assured has affixed णकर्त्यांचे नांव / घोषणाकर्ता का नाम / Name of the Declarants गकर्त्यांचे नांव / घोषणाकर्ता का नाम / Name of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants गकर्त्यांचे पत्ता / घोषणाकर्ता का पता/ Address of the Declarants जिसा अधिनियम (सुधारणा) अध्यादेश, SECTION 45 OF कोणतीही आयुर्विमा योजना, योजनेच्या तारखेपासून म्हणजेच विवसापासून अथवा योजनेच्या रायडरच्या विवसापासून, याप एखादी आयुर्विमा योजना, योजनेच्या तारखेपासून म्हणजेच विवसापासून अथवा योजनेच्या रायडरच्या विवसापासून, परंतु याकरीता असा निर्णय कोणत्या साधारे घेण्यात आलेला वारसदार किंवा उत्तराधिकारी यांच्यासह पत्रव्यवहार केला पा स्पष्टीकरण 1 - था लए कलमाच्या उद्देशाने, ''फसवणूक'' या आयुर्विमा योजना जारी करण्यास प्रवृत्त करण्याच्या दृष्टीने खा (अ) सल्ला, खरे तर असा जो सत्य नाही आणि जो सत्य अ (ब) एखाद्या बाबीविषयी ज्ञान किंवा भरवसा असतानाही अर्थ (क) फसवणूकीच्या संज्ञेत बसणारे एखादे अन्य कृत्य; आणि (उ) असे एखादे कृत्य किंवा वगळणूक जी विशेषत्वे कायदानं (ड) असे एखादे कृत्य किंवा वगळणूक जी विशेषत्वे कायदानं वा क्षा के प्रवास कायदानं कायदानं वा | I his thumb impression above after fully ur sarants  2015 चे कलम 45 / बीमा कानून ( THE INSURANCE LAWS (AME)  व योजना जारी करण्यात आल्याच्या किंवा जोखिम की जो सर्वात अखेरचा असेल त्यापासून तीन वर्षांच्यों को जो सर्वात अखेरचा असेल त्यापासून तीन वर्षांच्यों को जो सर्वात अखेरचा असेल त्यापासून तीन वर्षांच्यों को जो सर्वात अखेरचा असेल त्यापासून ती आहे तो कारणे व सामग्री विषयी विमाकर्त्यांने लिंहिजे.    शब्दाचा अर्थ म्हणजे विमाधारकाने किंवा त्याचे प्रतिलीलपैकी कोणतेही केले गेलेले कृत्य होय.   हो यावर विमाधारकाचा स्वतःचा विश्वास नाही;   वाब विमाधारकाद्वारे सक्रियरित्या दडवून ठेवणे;   गे   ने फसवणूक म्हणून जाहीर केलेली आहे.   परिणाम होऊ शकतो त्यांचे बाबत विमाधारकाने मौन                      | स्वाक्षरी /हस्ताक्षर/Signature (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 45 / NDMENT) ACT, 2015 कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेचे पुनरूजजीवनाव्या निमंच्या कालावधीत फसवणुकीच्या आधारे प्रश्नाधीन असू शक खित स्वरूपात विमाधारक किंवा विमाधारकाचे कायदेशीर प्रतिनिधी किंतोनिधीकरवी, विमाकर्त्याची फसवणूक करण्याच्या हेतूने किंवा विमाकर्त्यां |

नव्हता किंवा असे चुकीचे विधान किंवा सत्य वस्तुस्थितीची दडवणूक ही विमाकर्त्यांच्या माहितीत होती : याकरीना अशी अट आहे की, फसवणूकीच्या प्रकरणात योजनाधारक हयात नसल्याच्या प्रसंगी खोटेपणाची बाब खरी नसल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांवर येते. स्पष्टीकरण : अशी व्यक्ति जिने विमा कराराची मागणी आणि तडजोड केलेली आहे ती व्यक्ति करारनाम्याची पूर्तता होण्याच्या उद्देशाने, विमाकर्त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून गणली जाईल.

(4) एखादी आयुर्विमा योजना, योजनेच्या तारखेपासून म्हणजेच योजना जारी करण्यात आल्याच्या किंवा जोखिम कालावधी प्रारंभ होण्याच्या दिवसापासून किंवा योजनेच पुरूजीवनाच्या दिवसापासून अथवा योजनेच्या तारखेपासून, यापैकी जो सर्वात अखेरचा असेल त्यापासून तीन वर्षांच्या कालावधीत फसवणुकीच्या आधारे प्रश्नाधीन असू शकते, ज्याकरीता आधार असे विधान किंवा विमाधारकाच्या जीवनकालाच्या अपेक्षेबाबत सत्य वस्तुस्थिती लपवून ती माहिती प्रस्ताव किंवा अन्य कागदपत्रांत, ज्यांच्या आधारे विमा योजना जारी करण्यात आलेली आहे किंवा पुनरूज्जीवन करण्यात आले अथवा वगळणूक जारी केली असेल, त्यात चुकीची नोंद केली गेली असेल.

परंतु याकरीता सदर योजना आपली नाही असे म्हणण्याचा निर्णय ज्यांच्या आधारे घेण्यात आलेला आहे ती कारणे व सामग्री विषयी विमाकर्त्याने लिखित स्वरूपात विमाधारक किंवा विमाधारकाचे कायदेशीर प्रतिनिधी किंवा वारसदार किंवा उत्तराधिकारी यांच्यासह पत्रव्यवहार केला पाहिजे.

- यास अट अशी की, असे चुकीचे विधान किंवा सत्य वस्तुस्थिती लपवून ठेवलेली आहे, आणि फसवणूकीच्या तत्वावर नव्हे, अशा प्रकरणी योजना आपली नाही असे म्हणताना, योजना आपली नाही असे महणताना, योजना आपली महणताना, योजना असे महणताना, योजना असे महणताना, योजना आपली महणताना, योजना असे महणताना, योजना असे महणताना, योजना आपली महणताना, योजना आपली
- स्पष्टीकरण या उप-कलमाच्या उद्देशाने, चुकीचे विधान किंवा सत्य वस्तुस्थिती लपवण्याची बाब ग्राह्य धरली जाणार नाही जोपर्यंत त्याचा प्रत्यक्ष आधार विमाधारकाने घेतलेल्या जोखिमेवर असणार नाही, याची जबाबदारी विमाधारकावर राहील की त्यांनी हे दर्शवावयाचे आहे की विमाधारकास सदर बाब ठाऊक होती की विमाधारकास कोणतीही विमा योजना जारी केली गेली
- (5) या कलमातील कोणतीही बाब अशी नाही की ज्यायोगे विमाधारकास कोणत्याही वेळी जर त्यांची इच्छा असेल तर वयाचा पुरावा देण्यापासून थांबवू शकेल, आणि कोणतीही योजना प्रस्तावामध्ये विमाधारकाचे वय चुकीचे नमूद केलेले आहे आणि त्यामुळे सबळ पुराव्यास्तव योजनेचा ताळमेळ घेण्यात आला आहे या कारणामुळे प्रश्नाधीन राहू शकत नाही.
- (1) किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी पर, पॉलिसी की तारीख से अर्थात् पॉलिसी के निर्गमित किए जाने की तारीख से या जोखिम के प्रारंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्जीवित होने की तारीख से या पॉलिसी में राईडर जोड़े जाने की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, तीन वर्ष के पश्चात् किसी आधार पर, चाहे जो भी हो, आक्षेप नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी जीवन बीमा पॉलिसी पर पॉलिसी के निर्गमित किए जाने की तारीख से या जोखिम प्रारंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्जीवित होने की तारीख से या पॉलिसी में राईडर जोड़े जाने की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, कपट के आधार पर तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय आक्षेप किया जा सकेगाः
  - परन्तु <mark>बीमाकर्ता को लिखित में बी</mark>माकृत या उसके विधिक प्रतिनिधियों या नामनिर्देशितियों या <mark>बीमाकृत</mark> के समनुदेशितियों को, वे आधार और तथ्य, जिन पर ऐसा विनिश्चय आधारित है; संसूचित करने होंगे।
  - स्पष्टिकरण । इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''कपट'' पद से बीमाकृत द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी निर्गमित करने के आशय से निम्नलिखित में से किया गया कोई कृत्य अभिप्रेत है :-
  - (क) उस आशय के तथ्य के रूप में जो सत्य नहीं है और जिसे बीमाकृत सत्य होने का विश्वास नहीं करता है.
  - (ख) बीमाकृत द्वारा तथ्य की जानकारी और विश्वास रखते हुए तथ्य का सक्रिय छिपाव;
  - (ग) कोई अन्य कृत्य जो धोखा देने के क्षम हो; और
  - (घ) ऐसा कोई कृत्य या लोप जिसे विधि विशेष रूप से कपटपूर्ण घोषित करें।
  - स्पष्टीकरण 2 ऐसे तथ्यों के बारे में मात्र मौन रहना, जिनसे बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के निर्धारण के प्रभावित होने की संभावना हो तब तक कपट नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसी न हों कि यदि उन पर ध्यान दिया जाए तो बीमाकृत या उसके अभिकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह बोलने से मौन रहे या जब तक कि उसका मौन रहना स्वतः ही बोलने के समतुल्य न हो।
- (3) उपधारा (2) में किसी बात होते हुए भी, कोई बीमाकर्ता कपट के आधार पर किसी जीवन बीमा पॉलिसी को निराकृत नहीं करेगा, यदि बीमाकृत यह साबित कर सकता है कि सारवान् तथ्य का मिथ्या कथन करना या छिपाया जाना उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही था या यह कि उस तथ्य को छिपाए जाने का कोई विमीशत आशय नहीं था या यह कि सारवान तथ्य का ऐसा मिथ्या कथन या छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी मे था:
  - परंतु कपट की दशा में, यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है तो झूठ को ना साबित करने का भार हिताधिकारियों पर होता है।
  - स्पष्टीकरण : कोई व्यक्ति, जो बीमा की संविदा की याचना करता है या बातचीत करता है, संविदा करने के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता समझा जाएगा।
- (4) किसी जीवन बीमा पॉलिसी पर, पॉलिसी निर्गमित करने की तारीख से या जोखिम के प्रारंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्जीवित होने की तारीख से या पॉलिसी में राईडर जोड़े जाने की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, इस आधार पर कि बीमाकृत के जीवन की प्रत्याशा के बारे में सारवान तथ्य के किसी कथन को छिपाने का कथन प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज पर गलत ढंग से किया गया था जिस पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्जीवित की गई थी या राईडर जारी किया था, तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय आक्षेप किया जा सकेगाः परन्तु बीमाकर्ता को बीमाकृत या बीमाकृत के विधिक प्रतिनिधियों या नामनिर्देशितियों या समनुदेशितियों को वे आधार और सामग्री, जिन पर जीवन बीमा की पॉलिसी को निराकृत करने का
  - परन्तु बीमाकर्ता को बीमाकृत या बीमाकृत के विधिक प्रतिनिधियों या नामनिदेशितियों या समनुदेशितियों को वे आधार और सामग्री, जिन पर जीवन बीमा की पोलिसी को निराकृत करने का ऐसा विनिश्चय आधारित है, लिखित में संसूचित करनी पड़ेगी: परन्तु यह और कि मिथ्या कथन या सारवान् तथ्य को छिपाने के आधार पर पॉलिसी के निराकरण की दशा में, न कि कपट के आधार पर, निराकरण की तारीख तक पॉलिसी पर संगृहीत
  - प्रीमियम बीमाकृत या विधिक प्रतिनिधियों या नामनिर्देशितियों या समनुदेशितियों को ऐसे निराकरण की तारीख से नब्बे दिन की अविध के भीतर संदत्त किया जाएगा। स्पष्टिकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए तथ्य का मिथ्या कथन या छिपाया जाना तब तक सारवान नहीं समझा जाएगा जब तक बीमाकर्ता द्वारा वचनबद्ध किए गए जोखिम पर उसका
- सीधा संबंध न हो, बीमाकर्ता पर यह दर्शित करने का भार है कि क्या बीमाकर्ता उक्त तथ्य से अवगत था कि बीमाकृत को कोई जीवन बीमा पॉलिसी निर्गमित नहीं की गई थी।

  (5) इस धारा की किसी बात से बीमाकर्ता किसी भी समय आयु का सबूत उस दशा में मांगने से निवारित नहीं होगा यदि वह ऐसा करने का हकदार हो और किसी भी पॉलिसी को केवल इस कारण प्रश्नात किया गया नहीं समझा जाएगा कि पॉलिसी के निबन्धन के बाद में यह साबित किए जाने पर कि जिस व्यक्ति के जीवन का बीमा किया गया है उसकी आयु प्रस्थापना में गलत बताई
- गई थी, ठीक कर ली गई है।
  (1) No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy, i.e., from the cate
- of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.

  (2) A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground of fraud:
  - Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured of the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and the materials on which such decision is based.
  - Explanation I For the purpose of this sub section, the expression "fraud" means any of the following acts committed by the insured or by his agent, with the intent to deceive the insurer or to induce the insurer to issue a life insurance policy:
  - (a) The suggestion, as a fact of that which is not true and which the insured does not believe to be true;
  - (b) The active concealment of a fact by the insured having knowledge or belief of the fact; (c) Any other act fitted to deceive; and
  - (d) Any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.
  - Explanation II Mere silence as to facts likely to affect the assessment of the risk by the insurer is not fraud, unless the circumstances of the case are

such that regard being had to them, it is the duty of the insured or his agent, keeping silence ot speak, or unless his silence is, in itself, equivalent to speak.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), no insurer shall repudiate a life insurance policy on the ground of fraud if the insured can prove that the mis statement of or suppression of a material fact was true to the best of his knowledge and belief or that there was no deliberate intention to suppress the fact or that such mis-statement of or suppression of a material fact are within the knowledge of the insurer.

Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholder is not alive.

Explanation: A person who solicits and negotiates a contract of insurance shall be deemed for the purpose of the formation of the contract, to be

agent of the insurer.

(4) A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in the proposal or other document on the

or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in the proposal or other document on the basis of which the policy was issued or revived or rider issued:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision to repudiate the policy of life insurance is based:

Provided further that in case of repudiation of the policy on the ground of mis-statement or suppression of a material fact, and not on ground of fraud, the premiums collected on the policy till the date of repudiation shall be paid to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured within a period of ninety days from the date of such repudiation.

Explanation - For the purposes of this sub-ection, the mis-statement of or suppression of fact shall not be considered material unless it has a directbearing on the risk undertaken by the insurer, the onus is on the insurer to show that had the insurer been aware of the said fact no life insurance policy would have been issued to the insured.

(5) Nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life insured was incorrectly stated in the proposal.

# विमा अधिनियम (सुधारणा) अध्यादेश, 2015 चे कलम 41 / बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 41 / SECTION 41 OF THE INSURANCE LAWS (AMENDMENT) ACT, 2015

- (1) जोपर्यंत अशी सवलत प्रकाशित करण्यात आलेल्या प्रस्तावपुस्तिकेत किंवा विमाधारकाच्या तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार अनुङोय नसेल तोपर्यंत, कोणत्याही व्यक्तिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या, एखाद्या व्यक्तीस भारतातील जीवित वा मालमत्ते संबंधित एखाद्या प्रकारच्या जोखिमेच्या संदर्भाने विमा स्विकारण्यास, नूतनीकरण करण्यास वा सातत्यपूर्ण करण्यासाठी, मिळणार असलेल्या संपूर्ण वा अंशतः कमिशनमध्ये कोणतीही सवलत किंवा योजनेच्या दर्शविण्यात आलेल्या प्रिमियम (हप्त्याची रक्कम) वर सवलत देण्याचे प्रलोभन दाखविण्याची अनुमती नाही, आणि विमा स्विकारण्यासाठी, नूतनीकरण करण्यासाठी वा सातत्यपूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीने अशा सवलतीची मागणी करावयाची नाही.
  - यास अपवाद असा की, जर एखाद्या विमा अभिकर्त्याने स्वतःच्या जीविताच्या अनुषंगाने घेतलेल्या योजनेसंदर्भात त्याने प्रिमियमच्या रकमेत स्वीकारलेली सवलत जी उप-कलमाच्या संज्ञेच्या मथितार्थाच्या अधीन असेल आणि जर असा स्वीकार करतेवेळी विमा अभिकर्त्याने विहित करण्यात आलेल्या अटींप्रमाणे आपण विमाधारकाने नेमणूक केलेला बोनाफाईड विमा अभिकर्ता असल्याचे शाबित केले तर अशी रक्कम प्रिमियमवरील सवलत समजण्यात येणार नाही.
- (2) या कलमातील तरतुदींची पूर्तता करण्यात कसूर केलेली व्यक्ति दंडास पात्र राहील जो दहा लाख रूपयांपर्यंत होऊ शकतो.
- (1) किसी भी व्यक्ति को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य व्यक्ति को प्रलोभन के तौर से, बीमा लेने, नवीनीकरण करने या भारत में किसी जान व माल के जोखिम से संबंधित बीमे को जारी रखने के लिए कमीशन का पूरा अथवा कुछ भाग या पॉलिसी पर दिखाए गए प्रीमियम पर कुछ छूट देने की अनुमति नहीं है। न ही किसी व्यक्ति को बीमा लेने, उसका नवीनीकरण करने अथवा पॉलिसी को जारी रखने के लिए कोई भी छूट लेने की अनुमति है, सिवाय वह छूट के जो बीमाकर्ता के प्रकाशित विवरणिका या तालिकाओं के तहत स्वीकार्य है। तथापि एक बीमा अभिकर्ता द्वारा अपने ही जीवन पर लिए गए जीवन बीमा पॉलिसी पर मिले कमीशन को, इस उप धारा के अंतर्गत, प्रीमियम में छूट नहीं माना जाएगा यदि उस पॉलिसी के स्वीकृति के दौरान, वह अपने आप को बीमाकर्ता के यथार्थ बीमा अभिकर्ता के रूप में प्रमाणित कर दें।
- (2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपंबंधों के अनुपालन में व्यतिक्रम करेगा, शास्ति के लिए, जो दस लाख रूपये तक की हो सकती है, दायी होगा।
- No person shall allow or offer to allow, either directly or indirectly, as an inducement to any person to take out or renew or continue an insurance in respect of any kind of risk relating to lives or property in India, any rebate of the whole or part of the commission payable or any rebate of the premium shown on the policy, nor shall any person taking out or renewing or continuing a policy accept any rebate, except such rebate as may be allowed in accordance with the published prospectus or tables of the insurer.
  - Provided that acceptance by an insurance agent of commission in connection with a policy of life insurance taken out by himself on his own life shall not be deemed to be acceptance of a rebate of premium within the meaning of this sub-section of at the time of such acceptance the Insurance agent satisfies the prescribed conditions establishing that he is a bonafide insurance Agent employed by the insurer.
- (2) Any person making default in complying with the provisions of this section shall be liable for a penalty which may extend to ten lakh rupees.

# केवळ वैद्यकिय तपासणीसह असलेल्या विमा अर्जासाठी /केवल स्वास्थ्य परीक्षा सम्बन्धित बीमों के लिए / FOR MEDICAL CASES ONLY

''मी असे प्रमाणित करतो की, प्रस्ताव देणाऱ्याने प्रस्ताव पत्रांतील प्रश्न क. 10 व त्या पुढील प्रश्नांची उत्तरे खरीखुरी लिहीली गेली असल्याची कबुली देउन नंतरच माझ्या उपस्थितीत सही केली /तिचा/त्याचा अंगठा उठविला आहे)'' / ''मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रस्तावक ने यह स्वीकार किया कि फार्म के प्रश्न 10 तथा उसके बाद के प्रश्नों के सभी उत्तर सही-सही लिखे गये हैं और तदुपरांत अपने हस्ताक्षर किए / अपना अंगूठा निशान लगाया ।'' / "I certify that the Life Assured has signed/put his/her thumb impression in my presence after admitting that all the answers to Question Nos.10 and onwards of this form have been correctly recorded."

> प्रस्तावकाची सही किंवा अंगठ्याचा उसा प्रस्तावक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान Signature or Thumb impression of the proposed

वि.सू. : सही किंवा अंगठ्याचा ठसा वैद्यकिय तपासणी करणाऱ्याच्या उपस्थितीत करणे आवश्यक आहे. विशेष : हस्ताक्षर करना या अंगुठा निशान लगाना स्वास्थ्य परीक्षक की उपस्थिती में ही होना चाहिए

N.B. : Signature or thumb impression should be affixed in the presence of Medical Examiner.

प्रस्तावकाची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा स्वास्थ्य परीक्षक के हस्ताक्षर (Signature of the Medical Examiner)

# इ-विमा खात्याकरीता अतिरिक्त प्रश्न / ई-इन्शोरेन्स एकाउन्ट से सम्बन्धित अतिरिक्त प्रश्न / ADDITIONAL QUESTION FOR e-INSURANCE ACCOUNT

| ई-इन्स्योरेन्स एकाउन्ट खोलने के लिए प्रस्ताव का परिशिष्ट<br>ADDENDUM TO PROPOSAL FOR OPENING e-INSURANCE A<br>1. प्रस्ताव संख्या : / प्रस्तावपत्र संख्याएं : / Proposal No(S) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | शाखा/विभाग सांकेतांक :<br>RCCOUNT शाखा कोड/ मंडल कोड :<br>Branch code/Division code :                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol> <li>तुमच्याकडे अगोदरच इ-विमा खाते आहे. होय/ नाही         जर होय, कृपया इ-         क्या आपका पहले से ई-इन्स्योरेन्स एकाउन्ट : हां/नहीं         यिद हां तो ई-इन्स्ये</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ं-विमा खाते क्रमांक नमूद करा : पित्रां हिम्स एकाउन्ट नंबर लिखें : nention the e-Insurance Account Numbér                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>(अ) तुम्हाला विमा योजना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात हवी आहे का? होय /नाही         (ब) जर होय आणि जर तुम्ही इ-विमा खाते आमच्याद्वारे उघडू इच्छित असाल         तर पसंत असलेल्या विमा गृहाची निवड करा जेथे इ-विमा खाते उघडावयाचे आहे.         (खालीलपैकी कोणत्याही एका विमा गृहावर निशाणी करा)</li> <li>(अ) क्या आप पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में चाहते हैं ?हां /नहीं</li> <li>(ब) यदि हां तो क्या आप हमारे माध्यम से ई आई ए खाता खोलना चाहते हैं उस बीमा         िपोज़िटरी को चुनिए जिसमें ई-बीमा खाता खुलवाए जाने की आवश्यकता है         (निम्नलिखित बीमा रिपोज़िटरी में से किसी एक पर निशान लगाएं)</li> </ul> | (a) Whether you want policy in electronic format? Yes / No (b) If yes and if you wish to open as eLA account through us. Select the preferred insurance repository in which e-insurance account needs to be opened. (please tick against any one the following Insurance Repository) |
| एनएसडीएल डाटा मॅनेजमेंट लिमिटेड एनएसडीएल डाटा प्रबंधन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | लिमिटेड NSDL Data Management Limited                                                                                                                                                                                                                                                 |
| सेंट्रल इन्स्युरन्स रिपॉझिटरी लिमिटेड सेन्ट्रल इन्स्योरेन्स रिपॉज़ि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तटरी लिमिटेड Central Insurance Repository Limited                                                                                                                                                                                                                                    |
| एसएचसीआयएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एसएचसीआईएल प्रोजेक्ट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स लिमिटेड SHCIL Projects Limited                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कार्वी इन्स्युरन्स रिपॉझिटरी लिमिटेड वार्वी इन्स्योरेन्स रिपोज़िट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | री लिमिटेड Karvy insurance Repository Limited                                                                                                                                                                                                                                        |
| सीएएमएस रिपॉझिटरी लिमिटेड सीएएमएस रिपोज़िटरी सवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | र्वेसेज़ लिमिटेड CAMS Repository Services Limited                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. प्राधिकृत प्रतिनिधीचे विवरण (बंधनकारक) / प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण (ऑ<br>नाव / नाम /Name :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | निवार्य) / Authorized Representative Details (Mandatory)                                                                                                                                                                                                                             |
| जन्मतारीख: / जन्म तिथि: /Date of Birth: लिंग /लिंग<br>जन्मतारीख: / जन्म तिथि: /Date of Birth: लिंग /लिंग<br>इ. विमा अर्जदारासह नाते: / ईआईए आवेदक से संबंध: /Relationship with elA applicant: .<br>ईमेल आईडी: /ई-मेल आयडी: /E-mail ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ए आवेदक का पता हो , यदि इससे भिन्न हो तो पता लिखें :                                                                                                                                                                                                                                 |
| week week ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | देश /देश/Country :                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

प्राधिकृत प्रतिनिधी हा इ-विमा खात्याचा (इ-आयए) एक प्रकारे विश्वस्त आहे आणि त्याची नेमणूक इ-आयए धारकाने केली असली पाहिजे. प्राधिकृत प्रतिनिधी ही इ-विमा खाते धारकाने नेमणूक केलेली अशी व्यवती आहे जी इ-विमा खाते धारकाच्या मृत्यूच्या किंवा अकार्यक्षम होण्याच्या प्रसंगी इ-विमा खात्याचे व्यवहार पाहू शकते. प्राधिकृत प्रतिनिधीस केवळ इ-विमा खात्याची पाहणी करता येईल आणि विमा योजनांचे रेखाचित्रण पाहता येईल.

#### घोषणापत्र

इ-विमा खात्या संदर्भात विमा नियामक व विकास प्राधिकरण आणि विमा गृहाचे नियम व नियमावली ज्या सध्या प्रचलित आहेत त्या मी वाचल्या आहेत आणि मला त्या समजल्या आहेत आणि अशा इ-विमा खात्या संदर्भात वेळोवेळी अंमलात असलेल्या नियम व नियमावलीचे बंधन पाळण्याचे व त्यांचे पालन करण्याचे मी मान्य करीत आहे. मी याद्वारे जाहीर करीत आहे की मी दिलेली माहिती माझे ज्ञान व विश्वासानुसार सत्य, अचूक व परिपूर्ण आहे, या अर्जासोबत सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे अस्सल आहेत आणि कोणत्याही शासकीय किंवा वैधानिक प्राधिकरणाद्वारे वेळोवेळी जारी करण्यात आलेले कायदे, नियम, नियमावली किंवा एखादा अध्यादेश वा कानुन किंवा एखादे परिपत्रक, निर्देश यांचे उल्लंघन करण्याकरिता मी हा अर्ज केलेला नाही. मी विमा गृहास एखादी योजना आणि खाते संबंधित माहिती इ-मेल आणि एसएमएस (लघुसंदेश) द्वारे मी दिलेल्या संपर्क क्रमांकावर पाठविण्यास प्राधिकृत करीत आहे. मी ज्या विमा कंपनीकडून इ-योजना घेतलेली आहे, तिच्याकडून एखादी भौतिक (स्पर्श करता येणारी) विमा योजना जारी झाली तर, भौतिक योजनेसाठी पुरविण्यात आलेल्या पत्यावर इ-विमा खात्यात नमूद पत्त्याचे प्राबल्य राहील. मला असे माहित आहे की कोणत्याही

भौतिक/इ-योजनेसंदर्भात पत्रव्यवहार विमा गृहाकडे नोंदणीकृत करण्यात आलेल्या पत्त्यावर पाठविला जाईल. या अर्जात नमूद केलेल्या विवरणात काही बदल असल्यास त्याबाबत विमा गृहास सूचित करण्याचे मी मान्य करीत आहे आणि जर अशी माहिती कळविण्यात विलंब झाल्यास, जी अद्ययावत करण्यात आलेली नाही अशा सदर माहितीनुसार कार्य केल्यास सदरहू विमा गृह जबाबदार राहणार नाही. तसेच, जर मी विमा कंपनीकडील विवरण अद्ययावत केले तर अशा प्रसंगी, मी त्यांना ते इ-विमा खाल्यात अद्ययावत करण्यासाठी तुमच्याकडे सादर करण्यास प्राधिकृत करीत आहे आणि मी सदरहू खात्यात धारण केलेल्या/करणार असलेल्या सर्व योजनांचे बाबतीत अशी अद्ययावतता लागू होईल. जिच्याकडे मी विमा संरक्षण प्राप्त करण्यासाठी पोहोचलो असेन अशा इतर विमा कंपनीस अशी माहिती पुरविण्यासाठी मी विमा गृहास प्राधिकृत करीत आहे.

मी पुढे असेही मान्य करीत आहे की एखादी खोटी/दिशाभूल करणारी माहिती मी दिली असेल किंवा एखादी वास्तव बाब मी लपवून ठेवली असल्यास माझे इ-विमा खाते रद्द व पुढील कार्यवाही होण्यास पात्र राहील. भी याद्वारे विमा गृह/विमा कंपनी यांना मी संबंधित विमा कंपन्या आणि /अथवा त्यांचे प्राधिकृत अभिकर्ता व प्रतिनिधी यांना पुरविलेली सर्व/कोणतीही एखादी माहिती, जिच्याबाबत मी व्यवहार केला असेल अशा माहितीतील मी वेळोवेळी उपलब्ध केलेल्या बदल/अद्ययावततेसह कोणत्याही स्वरूपात, पद्धतीत उघड करण्यास, देवघेव करण्यास आणि देण्याकरीता याद्वारे प्राधिकृत कैरीत आहे.

प्राधिकृत पक्षकारांस कदाचित आवश्यक असलेली कोणतीही अतिरिक्त माहिती/कागदपत्र पुरविण्याचे मी याद्वारे मान्य करीत आहे. मी याद्वारे मान्य करीत आहे की हा एक अद्वितीय इ-विमा खाते उघडण्यासाठी गतकाळात अर्ज केलेला नाही.

मी सादर केलेल्या विवरणाची, ज्यामध्ये केवायसी दस्तावेज समाविष्ट आहेत त्याविषयी मला जाणीव आहे, आणि मी याद्वारे माझ्या पसंतीच्या वर निवड केलेल्या विमा गृहाकडे इ-विमा खाते उघडण्यासाठी माझी संमती देत आहे.

## ईआईए हेतु प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण

प्राधिकृत प्रतिनिधी ई-इन्स्योरेन्स एकाउन्ट (ईआईए) के न्यासी की तरह से होता है और उसे ईआई धारक द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाना होता है। प्राधिकृत प्रतिनिधि वह व्यक्ति होता है जो कि ईआईए धारक द्वारा नियुक्त किया जाता है जो ईआए धारक की मृत्यु या ई आई ए तक पहुँचने में अक्षम होने पर, ई आई ए खाते तक पहुँच सके। प्राधिकृत प्रतिनिधि केवल ई-इन्स्योरेन्स एकाउन्ट तक पहुँच सकता है और वह बीमा पॉलिसियों के पोर्टफोलियो को जान सकता है।

#### घोषणा

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और बीमा रिपोज़िटरी के नियम और जो विनियम ई-इन्स्योरेन्स एकाउन्ट से संबंधित हों जो कि वर्तमान में प्रवृत्त हों वे मेरे द्वारा पढ़ लिए गए हैं और मैंने इन्हें समझ लिया है तथा मैं इनका पालन करने के लिए संहमत हूं तथा इस ई-इन्स्योरेन्स एकाउन्ट हेतु समय समय पर प्रवृत्त नियमों से आबद्ध रहने के लिए सहमत हूँ। मैं एतद्द्वारा यह घोषित करता हूं कि यहां दिए गए विवरण सत्य हैं और सही हैं तथा मेरी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्ण हैं. इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए प्रलेखादि असली हैं तथा मैं समय समय पर किसी सरकारी या सांविधिक प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी अधिनियम, नियम, विनियम या किसी संविधान या विधान या किसी अधिसूचना, निदेशों के विपरित यह आवेदन नहीं कर रहा हूं। मैं बीमा रिपोज़िटरी को प्राधिकार देता हूं कि वह मेरे द्वारा दिए गए संपर्क विवरणों पर ई-मेल और एसएमएस के जरिए मेरी पॉलिसी और मेरे खाते संबंधी जानकारी भेज सकती है। मैंने जिससे ई-पालिसी ली है उस बीमा कंपनी द्वारा कोई भौतिक पॉलिसियां जारी किए जाने की स्थिति में, ई-इन्स्योरेन्स एकाउन्ट में दिये गए खाते का पता ही भौतिक पॉलिसियों में दिए गए पते की बजाय मान्य होगा. मैं यह समझता हूं कि हर भौतिक/ई-पॉलिसी से संबंधित संचार इन्सोरेन्स रिपोज़िटरी में लिखाए गए पते पर भेजा जाएगा। इस प्रपत्र में दी गई जानकारी में परिवर्तन होने पर उसकी जानकारी रिपोज़िटरी को देने के लिए मैं सहमत हूं और देरी होने की स्थिति में उक्त रिपोज़िटरी तब जिम्मेदार न होगी यदि वह उक्त अद्यतनीकृत सभी उन पॉलिसियों पर लागू होगा जो कि मेरे उक्त खाते में हों/आने वाले समय में हों।में रिपोज़िटरी को प्राधिकार देता हूं कि वह किसी भी बीमा कंपनी को यह जानकारी दे सके कि मैं बीमा कवर लेने आया था।

मैं पुन: सहमत हूं कि मेरे द्वारा दी गई किसी गलत जानकारी या फिर किसी महत्वपूर्ण बात को छिपाने पर भेरा ई-इन्स्योरेन्स एकाउन्ट समाप्त हो जाएगा और आगे यह कार्य न करेगा।

मैं एतदद्वारा प्राधिकार देता हूं कि इन्स्योरेन्स रिपोज़िटरी /इन्स्योरेन्स कंपनी हर रूप, मन:स्थिती या तरीके से संबंधित बीमा कंपनियों को और/या उसके प्राधिकृत एजेन्टों को और प्रतिनिधियों को सभी परिवर्तनीं/इस जानकारी में किए गए अद्यतनीकरणों सहित जो कि समय समय पर मेरे द्वारा किए गए हों उन सहित मैं जिनका लेनदेन कर सकता हूँ/मैंने जो लेनदेन किए हों उनके बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी उजागर कर सकती है, बता, भेजा सकती है।

मैं एतदद्वारा सहमत हूं कि इस आवेदन के संबंध में प्राधिकृत पक्षों द्वारा जो भी अतिरिक्त जानकारी /प्रलेखन अपेक्षित हो वह उन्हें उपलब्ध करवाया जा सकता है। मैं एतद् द्वारा पुष्टि करता हूं कि यह एक विशेष ई-इन्स्योरेन्स एकाउन्ट खोलने का आवेदन है और मैंने इसी इन्सोरेन्स रिपोज़िटरी को या अन्य किसी बीमा रिपोज़िटरी को पहले ई-इन्स्योरेन्स एकाउन्ट खोलने के लिए आवेदन नहीं आवेदन नहीं

मेरे द्वारा केवाईसी प्रलेखों सहित दिए गए विवरणों के बारे में मुझे पता है और एतदद्वारा मैं सहमति देता हूं कि मेरी पसंद की उपर्युक्त पसंदीदा बीमा रिपोज़िटरी में मेरा ई-इन्स्योरेन्स एकाउन्ट खोला जाए।

#### **Authorized Representative Details for the eIA**

An Authorized Representative is like a trustee to the e-Insurance Account(elA) and has to be deputed by elA holder. An Authorized Representative is a person appointed by elA holder who can access elA in the event of the elA holder's demise or in his incapacity to access the elA. The Authorized Representative can only access the e-Insurance Account and know the portfolio of insurance policies.

#### Declaration

The rules and regulations of Insurance Regulatory and Development Authority & Insurance Repository pertaining to an e-Insurance Account which are in force now have been read by me and I have understood the same and I agree to abide by and to be bound by the rules as are in force from time to time for such e-Insurance Account. I hereby declare that the particulars given herein are true, correct and complete to the best of my knowledge and belief, the document submitted along with this application are genuine and I am not making this application for the purpose of contravention of any Act, Rules, Regulations or any statute or legislation or any Notifications, Directions issued by any government or statutory authority from time to time. I authorise the Insurance Repository to send any policy and account related information through e-mail abd SMS on the government of statutory authority from time to time. I authorise the insurance expository to seria any policy and account related information through exhaust a contact details given by me. In case of any physical policies being issued by the Insurance Company from whom I obtained an e-policy the address in the e-insurance Account shall override the address provided for the physical policies. In understand that all the communication relating to any physical-policy will be sent to the address registered with the insurance Repository. I agree to inform the Repository of any changes in the details mentioned in this form in case of delay the said repository shall not be liable in case it acts on the said information which has not been updated. Further, in case I update the details with the Insurance Company I authorise them to submit the same to you for update in the e-Insurance Account and the said update will be applicable to all policies of any insurer that I hold/will hold in the said account. I authorise the Repository to pass

on the information to any Insurance Company that I have approached for availing of Insurance cover.

I further agree that any false/misleading information given by me or suppression of any material fact will render my e-insurance Account liable for termination and further action. I hereby authorise the Insurance Repository Insurance Company to disclose, share, remit in any form, mood or manner, all/lany of the information provided by me to the respective Insurace companies and/or to their authorised agents and representatives in which I may transact have transacted including all changes/updates to such information as and when provoded by me.

I hereby agree to provide any additional information/documention that may be required by the Authorised Parties, in connection with this application. I hereby confirm that this is a unique e-Insurance Account opening application and I have not applied to the same Insurance Repository or any other Insurance Repository for an e-Insurance Account in the past.

I am aware the details furnished by me, including KYC documents and I hereby give my consent for opening e-Insurance Account with the above preferred Insurance Repository of my choice.

इ-विमा खाते धारकाचे नाव :/ईआईए धारक का नाम :/ Name of elA Holder :

स्वाक्षरी / हस्ताक्षर / Signature

कार्यालयीन कामकाजाकरीता कार्यालय प्रयोग हेतु

FOR OFFICE USE

अ. इ-विमा खाते क्रमांक

अ. ई इन्स्योरेन्स एकाउन्ट नंबर

A. e-Insurance account number

ब. विमा गृह

ब, इन्शोरेन्स रिपोज़िटरी

B. Insurance Repository

वर नमुद बाबींची पडताळणी केली आणि इ-विमा खाते क्रमांक अचूकरीत्या एनबी मोडयुलमध्ये नमूद केला. उपर्युक्त सत्यापित है और ई इन्स्योरेन्स एकाउन्ट नंबर ठीक तरह से एनबी मॉड्यूल में डाला गया है। Verified the above and e-Insurance account number correctly keyed in NB Module

(शाखा अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी /शाखा अधिकारी के हस्ताक्षर/ (Signature of Branch Official)

# एजंटचा गोपनीय अहवाल / नैतिक जोखीम अहवाल अभिकर्ता की गोपनीय रिपोर्ट / नैतिक जोखिम रिपोर्ट AGENTS CONFIDENTIAL REPORT / MORAL HAZARD REPORT विकास अधिकारी/सी.एल.आय.ए.सं.क्र./मॅटोर / D.O./CLIA Code No./Mentor

| manil                                                                                                 | AGENTS CONFIDENTIAL संकते क्र./अभिकर्ता संकेत संख्या                                                                                                                                                                                                                                                | विकास अधिकारी/सी.एल.आय.ए.र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | )KI                                                     |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--|
|                                                                                                       | cy Code                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D.O./CLIA Code No./Mento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                         |                           |  |
| एजंटचे/एफ.एस.इ.चे नांव आणि पत्ता/अभिकर्ता/एफ.एस.इ. का नाम और पत्ता/<br>Agent's / FSE's Name & Address |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | संघ सदस्यत्व / संघ सदस्य<br>Club Membership                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | परवाना क्र./ अनुज्ञप्ति संख्या<br>Licence No.           |                           |  |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STREET, ALTO THE STREET | समाप्ती दिनांक / समाप्ती तिथि<br>Date of Expiry         |                           |  |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | प्रस्तावित रक्कम / प्रस्तावित राशि<br>Sum Proposed :    |                           |  |
| प्रस्तावव                                                                                             | काचे नाव / प्रस्तावक का नाम / Name of Proposer                                                                                                                                                                                                                                                      | वय /आयु / Age                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                         |                           |  |
| 1) (अ)                                                                                                | आपण प्रस्तावकाला कधीपासून ओळखता ? /कितनी अवधी से आप प्रस्तावव<br>How long do you know the life Proposed?                                                                                                                                                                                            | क को जानते है ? /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                         | oner of a residence       |  |
| (ৰ)                                                                                                   | आपण त्यांच्याशी / तिच्याशी नात्यांने संबंधित आहात का ?/क्या आप उर<br>Are you related to him/ her? if so, give details                                                                                                                                                                               | सके / उसकी रिश्तेदार है ? यदि हाँ तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विवरण दीजिए             | 1                                                       |                           |  |
| (雨)                                                                                                   | प्रस्तावित व्यक्तिची शैक्षणिक पात्रता काय आहे ?/ प्रस्तावक की शैक्षणिक ये<br>What is the educational qualifications of the life proposed ?                                                                                                                                                          | ोग्यता क्या है ? /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | TOWN THE THE THE                                        |                           |  |
| 2) (I)                                                                                                | पुढील स्त्रोतापासूनच्या वार्षिक उत्पन्नाचा तपशील द्या / वार्षिक आमदनी का विवर<br>Give details of Annual Income from                                                                                                                                                                                 | ण दे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रस्तावक /<br>Proposer | प्रस्ताविक व्यक्ति / प्रस्तावित<br>जीवन / Life proposed | शेरा / टिप्पणी<br>Remarks |  |
| (31)                                                                                                  | व्यवसाय नोकरी / नोकरी से / Employment                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                         |                           |  |
| (ৰ)                                                                                                   | धंदा, व्यवसाय, /व्यापार, व्यवसाय / Business, Profession                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                         | Land Day                  |  |
| ( <del>क</del> )                                                                                      | ) हिंदू अविभक्त कुटुंब /हिंदू अविभक्त कुटुंब / H.U.F.                                                                                                                                                                                                                                               | A Property of the Control of the Con |                         |                                                         |                           |  |
| (ड)                                                                                                   | अन्य स्त्रोत (तपशील द्या) / अन्य स्त्रोत (ब्यौरा लिखे) / Other Source (s                                                                                                                                                                                                                            | pecify details)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                         |                           |  |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | एकूण/कुल/Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                         |                           |  |
| 2) (II)                                                                                               | उपरोक्त उत्पन्नसंबंधात कोणता पुरावा आपण तपासला आहे का ?/उपर बताये<br>जाँच लिया ? What proof of income is verified by you in respe                                                                                                                                                                   | गये आय के बारे में आपने कौनसा सबूत<br>ct of income stated above ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                         |                           |  |
| (अ)                                                                                                   | वेतन सूची किंवा नियोक्त्याने दिलेले प्रमाणपत्र / क्या वे वेतन पत्र, फलक है<br>पत्र है ? /Whether if is salary sheet or certificate issued by th                                                                                                                                                     | ? या नियोक्ता द्वारा दिया हुआ प्रमाण<br>e employer ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                         |                           |  |
| (ৰ)                                                                                                   | चार्टड अकौन्टटने दिलेले ते प्रमाण पत्र आहे का ? आयकर अधिका-यांनी दिलेला<br>क्या ये शास्त्रप्राप्त लेखपालने दिया हुआ प्रमाण पत्र हैं ? आयकर विभाग ने दिया हुआ<br>Whether it is certificate issued by th C.A.? What is the Perma<br>I. T. authorities ?                                               | आ स्थायी लेखा संकेत संख्या क्या है ?/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                         |                           |  |
|                                                                                                       | आयकर विवरण पत्रिकाच्या प्रति तपासल्या आहेत का ? स्थायी खाते क्रमांक क<br>की जाँच की हैं क्या ? स्थायी लेखा संकेत संख्या का है ? /<br>Whether copies of income tax returns verified ? What is the                                                                                                    | PAN?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                         | To the                    |  |
| (ভ)                                                                                                   | प्रस्तावित व्यक्तिच्या आर्थिक स्थितीबाबत आपण व्यक्तिशः समाधानी आहात का अ<br>आहे का ? / क्या आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रस्तावक बीमाकर्ता की वित्तिय स्थि<br>वर्तमान प्रस्ताव का आप समर्थन करते है ?/ Are you personally satisfi<br>of the proposer / life assured and justify the current proposal | थती के बारे में संतुष्ट है ? क्या<br>ied with the financial standing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                         |                           |  |
| (इ)                                                                                                   | आपला ग्राहक जाणून घ्या/धनशुश्रीकरण विरुद्ध मार्गदर्शक सुत्रांचे प्रस्तावकाने पाल<br>लाँडरींग नॉर्म्स की प्रस्ताव में पूर्ती की गयी है ? Whether KYC/AML norm                                                                                                                                        | न केले आहे का ? क्या के .वाय .सी./ॲन्टी<br>ns are fulfilled for the proposer ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                         |                           |  |
| (फ)                                                                                                   | प्रस्तावित आयु आणि किंवा प्रस्तावक कोणत्याही दहशतवादी चळवळींशी वा कृत्यांश<br>करून घेतली आहे का ?/क्या आपके प्रस्तावक या प्रस्ताविक जीवन कोई भी आतंक<br>संतुष्ट है ? Are you satisfied that the proposed and /or propo<br>terrorist activities ?                                                    | वादी के संपर्क में नहीं हैं ? और उससे आप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                         |                           |  |
| 3) (अ)                                                                                                | प्रस्तावित आयुष्याची सर्वसाधारण तब्येत कशी आहे <sup>ं</sup> ? प्रस्तावित जीवन की साध<br>What is the general state of health of the life proposed.                                                                                                                                                   | गरण स्वास्थ्य अवस्था कैसी है ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                         |                           |  |
| , (ब)                                                                                                 | त्यास/तिस एखादे शारीशैक व्यंग, दृष्टीकोन किंवा श्रवणदोष, शारीशैक कमतरत<br>का ? / क्या उसको प्राकृतिक विकृति है या देखने सुनने में कोई विकृति है अथवा<br>बाधा हैं ? Does he/she have any physical deformity, impaired<br>impairment or Mental retardation ?                                          | शारीरीक या मानसिक विकास में कोई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                         |                           |  |

| कोई डाक्टरी खोज                                                                                                                                                                                                                | हुई है ?/ Do you have a operation or medical Inv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ny knowledge of his/her having su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शन हुई है ? या अस्पताल में भर्ती किये गए या<br>ffered from any illiness or Injury or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पॉलिसी लॅप्स झालेली<br>बारे में विचार-विमर्श !<br>discuss with the                                                                                                                                                             | नाही ह्याविषयी आपले समाधान :<br>किया और क्या आप संतुष्ट है वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | म्राले आहे का ?/ क्या आपने प्रस्तावक से या I<br>के कोई भी पॉलिसी पिछले तीन वर्षों के अंदर<br>the status of Previous Policies a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र्ग केली आहे का आणि गेल्या तीन वर्षात एकही<br>प्रस्तावित जीवन से पूर्व पॉलिसीयोंकी स्थिती के<br>कालातीत (लेप्स) नहीं हुई हैं I I /Did you<br>nd are you satisfied that no policy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | And the control of the policy of the control of the |
| प्रस्तावित शतीखेरी<br>पॉलिसी के पुनर्चल<br>स्वीकृत की गई हे                                                                                                                                                                    | ज अन्य शतीवर मान्य झाला<br>न) के बारे में जानकारी है जं<br>ो । /Are you aware of ar                                                                                                                                                                                                                                                                                | अशी आपणांस कल्पना आहे का ? क्या<br>ो आस्थगित, अस्वीकृत, या छोड दी गई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | aणीवर टाकला, नाकारला वगळला किंवा<br>आपको प्रस्तावक के कोई भी प्रस्ताव (या<br>i, या प्रस्तावित के अलावा अन्य रातौं पर<br>y) of the life proposed having been<br>ed ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| शकेल ह्या संबंधात आ<br>किसी निजी आदतों य                                                                                                                                                                                       | पणांस कल्पना आहे का ?/क्या १<br>गा अन्य किसी भी हालतों का पर<br>Il position of the life prop                                                                                                                                                                                                                                                                       | भापको प्रस्तावित के व्यवसाय, आर्थिक या साम<br>ता हैं जिनसे जोखिम बढ जाए । /Are you a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वा अन्य कोणतीही परिस्थिती जी जोखिम वाढवू<br>ग्राजिक स्थिति के बारे में जानकारी है या उसकी<br>aware of anything in the occupation,<br>yy other circumstances which might                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रस्तावक को पूरी तरह                                                                                                                                                                                                          | ह समझा दि है क्या ?/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | र्त्याला पूर्णपणे समजावून दिल्या आहेत का ?<br>conditions of the plan to the prop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /इस योजना की सभी शर्ते तथा नियम आपने<br>oser?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8) बिना वैद्यकिय प्रकरण                                                                                                                                                                                                        | iत फक्त पुढील माहिती द्या./बि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ना डॉक्टरी बीमा के अंतर्गत, निम्न जानकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | दिजिए । / Under Non-Medical cases only, give :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अ) ओळखण्याची                                                                                                                                                                                                                   | खूण /पहचान के निशान / Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rks of Identification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Exact Physical Measurements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ब) निश्चित शारीर                                                                                                                                                                                                               | राक नाप / सहा शाराराक नाप ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Exact Physical Measurements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उंची<br>उँचाई<br>Height                                                                                                                                                                                                        | ব্যন<br>Weight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बेंबीच्या पातळीवर पोटाचा घेर<br>पेट का घेरा नाभि तक<br>Girth of Abdomen at Navel Leve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्तनाग्रांच्या पातळीवर श्वास सोडून छातीचा घेर<br>निःश्वसन पर छाती का घेरा स्तनाग्र तक<br>I On Expiration Girth of Chest at Nipple Level                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्वास घेऊन छातीचा घेर<br>अंतःश्वसन पर<br>On Inspiration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Section of the sectio | चे.मी./cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | से.मी./Cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| से.मी./Cm.                                                                                                                                                                                                                     | कि.ग्रॅ./Kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | से.मी./Cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ч.Н./Ст.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (I. II.) OIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मी ह्या अन्वये घोषित करते<br>सत्य और सही है । / ।                                                                                                                                                                              | ो की वरील विधाने माझ्या माहिती<br>I hereby declare that the                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नुसार आणि विश्वासानुसार खरी आणि बरोब<br>foregoing statements are true and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र आहेत. /मैं यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोलिखित विवरण मेरी ज<br>d correct to the best of my knowledge and belie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नकारी और विश्वास के अनुसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मी ह्या अन्वये घोषित करते<br>सत्य और सही है । / ।                                                                                                                                                                              | ो की वरील विधाने माझ्या माहिती<br>I hereby declare that the                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नुसार आणि विश्वासानुसार खरी आणि बरोब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | र आहेत. /मैं यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोलिखित विवरण मेरी ज<br>d correct to the best of my knowledge and belie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नकारी और विश्वास के अनुसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मी ह्या अन्वये घोषित करते<br>सत्य और सही है । / ।<br>ठिकाण/स्थान                                                                                                                                                               | ो की वरील विधाने माझ्या माहिती<br>I hereby declare that the<br>दिनांक महिना                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नुसार आणि विश्वासानुसार खरी आणि बरोब<br>foregoing statements are true and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र आहेत. /मैं यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोलिखित विवरण मेरी ज<br>d correct to the best of my knowledge and belie<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नकारी और विश्वास के अनुसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मी ह्या अन्वये घोषित करते<br>सत्य और सही है । / ।<br>ठिकाण/स्थान                                                                                                                                                               | ो की वरील विधाने माझ्या माहिती<br>I hereby declare that the<br>दिनांक महिना                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नुसार आणि विश्वासानुसार खरी आणि बरोब<br>foregoing statements are true and<br>माह के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | र आहेत. /मैं यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोलिखित विवरण मेरी ज<br>d correct to the best of my knowledge and belie<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ानकारी और विश्वास के अनुसार<br>f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मी ह्या अन्वये घोषित करते सत्य और सही है । / । विकाण/स्थान  at  (विकास अधिकारी / ह्या व्यक्तिच्या ओळखी वि आधारे मी घोषित करतो व                                                                                                | ो की वरील विधाने माझ्या माहिती<br>hereby declare that the<br>दिनांक महिना<br>On the<br>सी.एल.आय.ए/मेंटॉर ने पु<br>क्यी माझी खात्री पटली आहे उ<br>की वरील विधाने माझ्या माहिती                                                                                                                                                                                      | नुसार आणि विश्वासानुसार खरी आणि बरोबर<br>foregoing statements are true and<br>माह के<br>day of<br>र्ण करणे)<br>गि मी स्वतंपणे केलेल्या चौकशीच्या<br>नुसार आणि विश्वानुसार खरी आणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | र आहेत. /मैं यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोलिखित विवरण मेरी ज<br>d correct to the best of my knowledge and belie<br>20<br>20<br>एजंटची स्वाक्षरी /अभिकर्ता का हस्ताक्षर<br>(स. शा. म./शा.म./ब. शा. म. ने पूर्ण करणे)<br>ह्या व्यक्तिच्या ओळखी विषयी माझी खात्री पटली आहे अ<br>आधारे मी घोषित करतो की वरील विधाने माझ्या माहि<br>आणि बरोबर आहेत.<br>(स. शा. म./शा. म./ ब. शा. म. ह्यारा पूर्ण किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नकारी और विश्वास के अनुसार f.  / Signature of the Agent  णि मी स्वतंत्रपणे केलेल्या चौकशीच्या तीनुसार आणि विश्वासानुसार खरी  जाए)  गर पार्टी की पहचान से संतष्ट हैं और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मी ह्या अन्वये घोषित करते सत्य और सही है । / । ठिकाण/स्थान  at  (विकास अधिकारी / ह्या व्यक्तित्व्या ओळखी वि आधारे मी घोषित करतो व बरोबर आहेत.  (विकास अधिकारी/सी मैं अपने द्वारा स्वतंत्र रूप यह घोषणा करता हूँ कि पू सही है । | ो की वरील विधाने माझ्या माहिती<br>hereby declare that the<br>दिनांक महिना<br>On the<br>सी. एल. आय. ए/मेंटॉर ने पु<br>क्वी वरील विधाने माझ्या माहिती<br>. एल. आय. ए/मेंटॉर द्वारा पुण<br>से की गई पूछताछ के आधार प<br>तोंल्लिखित विवरण मेरी जानका                                                                                                                   | नुसार आणि विश्वासानुसार खरी आणि बरोबर<br>foregoing statements are true and<br>माह के<br>day of<br>र्ण करणे)<br>गि मी स्वतंपणे केलेल्या चौकशीच्या<br>नुसार आणि विश्वानुसार खरी आणि<br>किया जाय)<br>र पार्टी की पहचान से संतुष्ट हूँ और<br>रो और विश्वास के अनुसार सत्य और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | र आहेत. /मैं यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोलिखित विवरण मेरी ज<br>d correct to the best of my knowledge and belie<br>20<br>20<br>20<br>एजंटची स्वाक्षरी /अभिकर्ता का हस्ताक्षर<br>(स. जा. म./जा.म./व. जा. म. ने पूर्ण करणे)<br>ह्या व्यक्तिच्या ओळखी विषयी माझी खात्री पटली आहे अ<br>आधारे मी घोषित करतों की वरील विधाने माझ्या माहि<br>आणि बरोबर आहेत.<br>(स. जा. म. / जा. म. ह्यारा पूर्ण किया<br>मैं अपने बहारा स्वतंत्र रूप से की गई पूछताछ के आधार प्<br>यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोत्लिखित विवरण मेरी जान<br>और सही हैं।<br>(To be complated by ABM/ BM/Sr. BM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | निकारी और विश्वास के अनुसार<br>f.<br>/ Signature of the Agent<br>णि मी स्वतंत्रपणे केलेल्या चौकशीच्या<br>तीनुसार आणि विश्वासानुसार खरी<br>जाए)<br>उर पार्टी की पहचान से संतुष्ट हूँ और<br>कारी और विश्वास के अनुसार सत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मी ह्या अन्वये घोषित करते सत्य और सही है । / । विकाण/स्थान                                                                                                                                                                     | ते की वरील विधाने माझ्या माहिती hereby declare that the दिनांक महिना On the  सी.एल.आय.ए/मेंटॉर ने पु भिष्णी माझी खाजी पटली आहे अ की वरील विधाने माझ्या माहिती .एल.आय.ए/मॅटॉर द्वारा पुण से की गई पूछनाछ के आधार प वेलिलखित विवरण मेरी जानका                                                                                                                        | नुसार आणि विश्वासानुसार खरी आणि बरोबः foregoing statements are true and माह के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र आहेत. /मैं यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोलिखित विवरण मेरी ज<br>d correct to the best of my knowledge and belie<br>20<br>20<br>20<br>एजंटची स्वाक्षरी /अभिकर्ता का हस्ताक्षर<br>(स. जा. म./जा.म./व. जा. म. ने पूर्ण करणे)<br>ह्या व्यक्तिच्या ओळखी विषयी माझी खात्री पटली आहे अ<br>आधारे मी घोषित करतो की वरील विधाने माझ्या माहि<br>आणि बरोबर आहेत.<br>(स. जा. म. / जा. म. / व. जा. म. ह्यारा पूर्ण किया<br>मैं अपने द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई पूछताछ के आधार प<br>यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोल्लिखित विवरण मेरी जान<br>और सही है ।<br>(To be complated by ABM/ BM/Sr. BM<br>I am satisfied with the identity of the party or<br>enquiries. I hereby declare that the forego<br>correct to the best my knowledge and belie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ानकारी और विश्वास के अनुसार  ह.  / Signature of the Agent  णि मी स्वतंत्रपणे केलेल्या चौकशीच्या तीनुसार आणि विश्वासानुसार खरी  जाए)  तर पार्टी की पहचान से संतुष्ट हूँ और कारी और विश्वास के अनुसार सत्य  )  n the basis of my independent ing statements are true and ef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मी ह्या अन्वये घोषित करते सत्य और सही है । / । विकाण/स्थान                                                                                                                                                                     | तो की वरील विधाने माझ्या माहिती hereby declare that the दिनांक महिना On the  सी.एल.आय.ए/मॅटॉर ने पु ाषयी माझी खात्री पटली आहे उ की वरील विधाने माझ्या माहिती ते.एल.आय.ए/मॅटॉर हारा पुण से की गई पूछताछ के आधार प वॉल्लिखित विवरण मेरी जानका d by the Dev. Officer the identity of the party or of declare that the foregorny knowledge and bel                     | नुसार आणि विश्वासानुसार खरी आणि बरोबर<br>foregoing statements are true and<br>माह के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | र आहेत. /मैं यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोलिखित विवरण मेरी ज<br>d correct to the best of my knowledge and belie<br>20<br>20<br>20<br>एजंटची स्वाक्षरी /अभिकर्ता का हस्ताक्षर<br>(स. जा. म./जा.म./व. जा. म. ने पूर्ण करणे)<br>ह्या व्यक्तिच्या ओळखी विषयी माझी खात्री पटली आहे अ<br>आधारे मी घोषित करतो की वरील विधाने माझ्या माहि<br>आणि बरोबर आहेत.<br>(स. जा. म. / जा. म. / व. जा. म. द्वारा पूर्ण किया<br>में अपने द्वारा पत्तंत्र रूप से की गई पूछताछ के आधार प<br>यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोल्लिखित विवरण मेरी जान<br>और सही हैं ।<br>(To be complated by ABM/ BM/Sr. BM<br>I am satisfied with the identity of the party or<br>enquiries. I hereby declare that the forego<br>correct to the best my knowledge and beli<br>ठिकाण /स्थान /dated at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ानकारी और विश्वास के अनुसार  है.  / Signature of the Agent  णि मी स्वतंत्रपणे केलेल्या चौकशीच्या तीनुसार आणि विश्वासानुसार खरी  जाए)  तर पार्टी की पहचान से संतुष्ट हूँ और कारी और विश्वास के अनुसार सत्य  )  n the basis of my independent ing statements are true and ef.  क /On the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मी ह्या अन्वये घोषित करते सत्य और सही है । / । ठिकाण/स्थान                                                                                                                                                                     | ो की वरील विधाने माझ्या माहिती hereby declare that the दिनांक महिना On the  ती. एल. आय. ए/ मेंटॉर ने पु क्षियों माझी खात्री पटली आहे उ की वरील विधाने माझ्या माहिती रे. एल. आय. ए/ मेंटॉर हारा पुण से की गई पूछनाछ के आधार प् वॉल्लिखित विवरण मेरी जानकार d by the Dev. Officer the identity of the party of declare that the foregor my knowledge and beli दिनांक | नुसार आणि विश्वासानुसार खरी आणि बरोबः foregoing statements are true and माह के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र आहेत. /मैं यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोलिखित विवरण मेरी ज<br>d correct to the best of my knowledge and belie<br>20<br>20<br>20<br>एजंटची स्वाक्षरी /अभिकर्ता का हस्ताक्षर<br>(स. ज्ञा. म./ज्ञा.म./व. ज्ञा. म. ने पूर्ण करणे)<br>ह्या व्यक्तिच्या ओळखी विषयी माझी खात्री पटली आहे अ<br>आधारे मी घोषित करतो की वरील विधाने माझ्या माहि<br>आणि बरोबर आहेत.<br>(स. ज्ञा. म. / ज्ञा. म. ह्यारा पूर्ण किया<br>में अपने द्वारा पत्रतंत्र रूप से की गई पूछताछ के आधार प्<br>यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोल्लिखित विवरण मेरी जान<br>और सही हैं ।<br>(To be complated by ABM/ BM/Sr. BM<br>I am satisfied with the identity of the party or<br>enquiries. I hereby declare that the forego<br>correct to the best my knowledge and beli<br>विकाण /स्थान /dated at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निकारी और विश्वास के अनुसार  / Signature of the Agent  शि मी स्वतंत्रपणे केलेल्या चौकशीच्या<br>तीनुसार आणि विश्वासानुसार खरी<br>जाए)<br>अर पार्टी की पहचान से संतुष्ट हूँ और<br>कारी और विश्वास के अनुसार सत्य  )  n the basis of my independent<br>ing statements are true and<br>ef.  क /On the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मी ह्या अन्वये घोषित करते सत्य और सही है । / । ठिकाण/स्थान                                                                                                                                                                     | ां की वरील विधाने माझ्या माहिती hereby declare that the दिनांक महिना On the  सी.एल.आय.ए/मॅटॉर ने पु क्षियी माझी खात्री पटली आहे उ की वरील विधाने माझ्या माहिती .एल.आय.ए/मॅटॉर हारा पुण से की गई पूछताछ के आधार प वॉल्लिखत विवरण मेरी जानकार d by the Dev. Officer he identity of the party or of declare that the foregorn my knowledge and bell दिनांक  दिनांक    | नुसार आणि विश्वासानुसार खरी आणि बरोबर foregoing statements are true and माह के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र आहेत. /मैं यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोलिखित विवरण मेरी ज<br>d correct to the best of my knowledge and belie<br>20<br>20<br>20<br>एजंटची स्वाक्षरी /अभिकर्ता का हस्ताक्षर<br>(स. शा. म./शा.म./व. शा. म. ने पूर्ण करणे)<br>ह्या व्यक्तिच्या ओळखी विषयी माझी खात्री पटली आहे अ<br>आधारे मी घोषित करतो की वरील विधाने माझ्या माहि<br>आणि बरोबर आहेत.<br>(स. शा. म. /शा. म. / व. शा. म. ह्यारा पूर्ण किया<br>मैं अपने द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई पूछताछ के आधार प्<br>यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोत्लिखित विवरण मेरी जान<br>और सही है ।<br>(To be complated by ABM/ BM/Sr. BM<br>I am satisfied with the identity of the party or<br>enquiries. I hereby declare that the forego<br>correct to the best my knowledge and beli<br>विकाण /स्थान /dated at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | निकारी और विश्वास के अनुसार  ह.  / Signature of the Agent  णि मी स्वतंत्रपणे केलेल्या चौकशीच्या तीनुसार आणि विश्वासानुसार खरी  जाए) अर पार्टी की पहचान से संतुष्ट हूँ और कारी और विश्वास के अनुसार सत्य  )  on the basis of my independent ping statements are true and ef.  at /On the  0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मी ह्या अन्वयं घोषित करते सत्य और सही है । / । विकाण/स्थान                                                                                                                                                                     | तो की वरील विधाने माझ्या माहिती hereby declare that the दिनांक महिना On the  सी.एल.आय.ए/मेंटॉर ने पु विधाने माझ्या माहिती ते.एल.आय.ए/मेंटॉर हारा पुण से की गई पूछताछ के आधार प वील्लिखित विवरण मेरी जानका d by the Dev. Officer he identity of the party o d declare that the forego my knowledge and bell दिनांक  दिनांक  तनांक  on the                           | नुसार आणि विश्वासानुसार खरी आणि बरोबर foregoing statements are true and माह के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र आहेत. /मैं यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोलिखित विवरण मेरी ज<br>d correct to the best of my knowledge and belie<br>20<br>20<br>20<br>एजंटची स्वाक्षरी /अभिकर्ता का हस्ताक्षर<br>(स. ज्ञा. म./ज्ञा.म./व. ज्ञा. म. ने पूर्ण करणे)<br>ह्या व्यक्तिच्या ओळखी विषयी माझी खात्री पटली आहे अ<br>आधारे मी घोषित करतो की वरील विधाने माझ्या माहि<br>आणि बरोबर आहेत.<br>(स. ज्ञा. म. / ज्ञा. म. ह्यारा पूर्ण किया<br>में अपने द्वारा पत्रतंत्र रूप से की गई पूछताछ के आधार प्<br>यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोल्लिखित विवरण मेरी जान<br>और सही हैं ।<br>(To be complated by ABM/ BM/Sr. BM<br>I am satisfied with the identity of the party or<br>enquiries. I hereby declare that the forego<br>correct to the best my knowledge and beli<br>विकाण /स्थान /dated at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निकारी और विश्वास के अनुसार  ह.  / Signature of the Agent  णि मी स्वतंत्रपणे केलेल्या चौकशीच्या तीनुसार आणि विश्वासानुसार खरी  जाए) अर पार्टी की पहचान से संतुष्ट हूँ और कारी और विश्वास के अनुसार सत्य  )  on the basis of my independent ping statements are true and ef.  at /On the  0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मी ह्या अन्वयं घोषित करते सत्य और सही है । / । विकाण/स्थान                                                                                                                                                                     | ां की वरील विधाने माझ्या माहिती hereby declare that the दिनांक महिना On the  सी.एल.आय.ए/मेंटॉर ने पु विधाने माझ्या माहिती ते.एल.आय.ए/मेंटॉर हारा पुण से की गई पूछताछ के आधार प वॉल्लिखित विवरण मेरी जानका d by the Dev. Officer he identity of the party or of declare that the foregor my knowledge and bell दिनांक  दिनांक  तनांक  on the  वर्षात्)/नाम और पद    | नुसार आणि विश्वासानुसार खरी आणि बरोबर foregoing statements are true and माह के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र आहेत. /मैं यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोलिखित विवरण मेरी ज<br>d correct to the best of my knowledge and belie<br>20<br>20<br>20<br>एजंटची स्वाक्षरी /अभिकर्ता का हस्ताक्षर<br>(स. शा. म./शा.म./व. शा. म. ने पूर्ण करणे)<br>ह्या व्यक्तिच्या ओळखी विषयी माझी खात्री पटली आहे अ<br>आधारे मी घोषित करतो की वरील विधाने माझ्या माहि<br>आणि बरोबर आहेत.<br>(स. शा. म. /शा. म. / व. शा. म. ह्यारा पूर्ण किया<br>मैं अपने द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई पूछताछ के आधार प्<br>यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोत्लिखित विवरण मेरी जान<br>और सही है ।<br>(To be complated by ABM/ BM/Sr. BM<br>I am satisfied with the identity of the party or<br>enquiries. I hereby declare that the forego<br>correct to the best my knowledge and beli<br>विकाण /स्थान /dated at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | निकारी और विश्वास के अनुसार  ह.  / Signature of the Agent  णि मी स्वतंत्रपणे केलेल्या चौकशीच्या तीनुसार आणि विश्वासानुसार खरी  जाए) अर पार्टी की पहचान से संतुष्ट हूँ और कारी और विश्वास के अनुसार सत्य  )  on the basis of my independent ping statements are true and ef.  at /On the  0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मी ह्या अन्वयं घोषित करते सत्य और सही है । / । विकाण/स्थान                                                                                                                                                                     | ां की वरील विधाने माझ्या माहिती hereby declare that the दिनांक महिना On the  सी.एल.आय.ए/मेंटॉर ने पु विधाने माझ्या माहिती ते.एल.आय.ए/मेंटॉर हारा पुण से की गई पूछताछ के आधार प वॉल्लिखित विवरण मेरी जानका d by the Dev. Officer he identity of the party or of declare that the foregor my knowledge and bell दिनांक  दिनांक  तनांक  on the  वर्षात्)/नाम और पद    | नुसार आणि विश्वासानुसार खरी आणि बरोबर foregoing statements are true and माह के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र आहेत. /मैं यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोलिखित विवरण मेरी ज<br>d correct to the best of my knowledge and belie<br>20<br>20<br>20<br>एजंटची स्वाक्षरी /अभिकर्ता का हस्ताक्षर<br>(स. शा. म./शा.म./व. शा. म. ने पूर्ण करणे)<br>ह्या व्यक्तिच्या ओळखी विषयी माझी खात्री पटली आहे अ<br>आधारे मी घोषित करतो की वरील विधाने माझ्या माहि<br>आणि बरोबर आहेत.<br>(स. शा. म. /शा. म. / व. शा. म. ह्यारा पूर्ण किया<br>मैं अपने द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई पूछताछ के आधार प्<br>यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोत्लिखित विवरण मेरी जान<br>और सही हैं ।<br>(To be complated by ABM/ BM/Sr. BM<br>I am satisfied with the identity of the party or<br>enquiries. I hereby declare that the forego<br>correct to the best my knowledge and beli<br>विकाण /स्थान /dated at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निकारी और विश्वास के अनुसार  ह.  / Signature of the Agent  णि मी स्वतंत्रपणे केलेल्या चौकशीच्या तीनुसार आणि विश्वासानुसार खरी  जाए) अर पार्टी की पहचान से संतुष्ट हूँ और कारी और विश्वास के अनुसार सत्य  )  on the basis of my independent ping statements are true and ef.  at /On the  0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |